



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 16—मार्च 22, 2013 (फाल्गुन 25, 1934)

No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 16—MARCH 22, 2013 (PHALGUNA 25, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 फरवरी 2013

सं. आरएस/3/4/1/2013/13-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में उप निदेशक (पीएसएसएस) श्री कोमल भटनागर को 23 फरवरी, 2013 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 + 8,000/- रु. के ग्रेड वेतन तथा नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ संयुक्त निदेशक (पीएसएसएस) के ग्रेड में नियमित आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

सं. आरएस/6/4/2013/14-कार्मिक--श्री सुशांता मल्लिक को 12 फरवरी, 2013 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति के अध्यक्ष (श्री डी. पी. त्रिपाठी) के वैयक्तिक स्टाफ में 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 + 6,600/- रुपए के ग्रेड वेतन में राज्य सभा सचिवालय में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

2. श्री सुशांता मल्लिक की नियुक्ति सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति के वर्तमान अध्यक्ष के विवेकाधीन है और उनके कार्यकाल के समापन के साथ ही समाप्त हो जाएगी।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

अन्तरिक्ष विभाग

बैंगलूर-560231, दिनांक 26 फरवरी 2013

सं. 6/1(1)/2013-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस. सी. के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांकों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं:--

क्रम सं.	नाम	नियुक्ति की तिथि
1	2	3
	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	प्रीतेश कुमार सिन्हा	28.09.2012
2.	अवि व्यास	28.09.2012

1	2	3
	श्री/श्रीमती/कु.	
3.	ईशान चतुरवेदी	28.09.2012
4.	मेहेर जैन	28.09.2012
5.	साकेत चावला	28.09.2012
6.	सिन्गमानेन अनुशा	28.09.2012
7.	तनुल गुप्ता	28.09.2012
8.	अनिल कुमार	28.09.2012
9.	आदित्य चौधरी	28.09.2012
10.	अभिनव क्षितिज	28.09.2012
11.	देबज्योति गांगुली	28.09.2012
12.	घाग प्रथमेश प्रदीप	28.09.2012
13.	अनन्य रे	28.09.2012
14.	अखिलेश्वर रेड्डी. पी	31.10.2012

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 7/1(1)/2013-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.07.2012 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	नाम	पद जिस पर पदोन्नति की गई
1	2	3
	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	बी. के. वेंकटरामु	विशिष्ट वैज्ञानिक
2.	कमरन अहमद	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
3.	के. एम. शानभोग	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी
4.	बी. सतीश कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
5.	प्रशांत के. एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी
6.	नारायण. आर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
7.	वी. कृष्ण मूर्ति	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ

1	2	3
	श्री/श्रीमती/कु.	
8.	जी. रविशंकर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
9.	सौरभ अग्रवाल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी
10.	नरेन्द्रा कुमार झा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
11.	मेरी जी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
12.	श्रीशा होल्ला. एस	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 7/1(1)/2013-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, बेंगलूर में श्री मो. हमज़ा अन्सारी को वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एस.सी. के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.01.2012 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 8/1(1)/2013-I--अन्तरिक्ष विभाग के इसरो दूरमिति अनुवर्तन तथा आदेश संचार जाल, बेंगलूर में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप में दिनांक 28.09.2012 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं:--

श्री/श्रीमती/कु.

1. रवि कुमार
2. अजित आर. कनले
3. स्वप्निल मुकुन्द यादव
4. अरुषी सेठ

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 11/1(1)/2013-I--राष्ट्रपति, इसरो मुख्यालय, अन्तरिक्ष विभाग, बेंगलूर में श्रीमती एस. एन. भाग्यलक्ष्मी को संयुक्त निदेशक (रा. भा.) के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.09.2012 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

दिनांक 28 फरवरी 2013

सं. 6/1(2)/2013-I--अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों ने अपने निवर्तन आयु

प्राप्ति के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों के अपराह्न से कार्यभार छोड़ दिया है:--

क्र. सं.	नाम	पद	कार्यमुक्ति की तिथि
श्री/श्रीमती/कु.			
1.	जतिन के देसाई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	30.09.2012
2.	डॉ. एस. पाणीग्रही	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच	31.10.2012
3.	ए. एस. डुरै	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	31.10.2012
4.	ए. एस. बुच	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	31.10.2012
5.	आर. एम. मकवाना	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	31.10.2012

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 22 फरवरी 2013

सं. ए-12012/3/2012-प्रशा.1--राष्ट्रपति, भारतीय सांख्यिकीय सेवा परीक्षा, 2011 के परिणामों के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के फलस्वरूप, भारतीय सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 1961 के नियम 8(1)(ए)(1) के तहत निम्नलिखित को उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख से पे बैंड-3 (15,600--39,100/- रु.)+5,400/- (ग्रेड पे) में भारतीय सांख्यिकीय सेवा (आईएसएस) के ग्रेड-IV में सहर्ष नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री सोमनाथ जाना	सहायक निदेशक (परिवीक्षाधीन)	27.12.2012
2.	श्री रंगा श्रीनिवासुलु	सहायक निदेशक (परिवीक्षाधीन)	31.12.2012
3.	श्री अमित कुमार	सहायक निदेशक (परिवीक्षाधीन)	16.01.2013

2. वे दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर रहेंगे।

के. आर. शर्मा, अवर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 फरवरी 2013

सं. ए. 32015/1/2009-प्रशा.-I (वि.वि.)--सक्षम प्राधिकारी, विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के राजभाषा खंड में सहायक (मुद्रण) के पद पर कार्यरत श्री प्रमोद कुमार को, विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के उक्त खंड में अधीक्षक (मुद्रण) के पद पर रुपए 9,300--34,800/- के वेतन बैंड और रुपए 4,600/- के ग्रेड वेतन में स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए दिनांक 25 फरवरी, 2013 की पूर्वाह्न से छः माह की अवधि के लिए तथा अगले आदेशों तक, तदर्थ आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति श्री प्रमोद कुमार को अधीक्षक (मुद्रण) के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए न तो कोई दावा करने का अधिकार प्रदान

करेगी और न ही उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं की गणना उच्चतर ग्रेड में उनकी वरिष्ठता के लिए की जाएगी।

बी. एम. शर्मा, उप सचिव

सं. ए. 12026/12/2001-प्रशा.-I (वि.वि.)--राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में अधीक्षक (विधि) के पद पर कार्यरत श्री आर. एस. जयकृष्णन को, विधि और न्याय मंत्रालय के राजभाषा खंड में सहायक विधायी परामर्शी (मलयालम) के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए, रुपए 15,600--39,100/- के वेतन बैंड और रुपए 6,600/- के ग्रेड वेतन में, दिनांक 1 फरवरी, 2013 की पूर्वाह्न से छः माह की अवधि के लिए और अगले आदेशों तक, तदर्थ आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति श्री आर. एस. जयकृष्णन को सहायक विधायी परामर्शी (मलयालम) के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए न तो कोई दावा करने का अधिकार प्रदान करेगी और न ही उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं की गणना इस ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में उनकी प्रोन्नति के लिए की जाएगी।

बी. एम. शर्मा, उप सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 2013

सं. आई-14011/10/2012-आईपीएस-1(1)--संघ लोक सेवा आयोग ने अपने पत्र सं. 7/20/2012, ए.आई.एस. दिनांक 22.02.2013 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम उनके सम्मुख वर्णित चयन सूचियों में अन्तिम रूप से शामिल करने का निर्णय लिया है जिन्हें 12.12.2012 को उत्तर प्रदेश संवर्ग में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए हुई पुनरीक्षा चयन समिति की बैठक में बनाया गया था अतः इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रपति ने, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इन अधिकारियों की नियुक्तियों को पुनः अधिसूचित कर दिया है जो कि पहले से ही भारतीय पुलिस सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग में नियुक्त थे तथा इनकी नियुक्तियां उनके नामों के सम्मुख वर्णित तिथियों से प्रभावी होंगी :--

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि	चयन सूची वर्ष	नियुक्ति की तिथि
सर्वश्री				
1.	अनिल कुमार दास	05.01.1955	2005	01.07.2005
2.	उदय प्रताप	01.01.1955	2007	07.12.2009
3.	डॉ. तहसीलदार सिंह	22.01.1956	2009	07.12.2009

हरीश चन्द्र राय, अवर सचिव

सं. आई-14011/10/2012-आईपीएस-1(II)--संघ लोक सेवा आयोग ने अपने पत्र सं. 7/20/2012, ए.आई.एस. दिनांक 22.02.2013 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम उनके सम्मुख वर्णित चयन सूचियों में अन्तिम रूप से शामिल करने का निर्णय लिया है जिन्हें 12.12.2012 को उत्तर प्रदेश संवर्ग में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए हुई चयन समिति की बैठक में बनाया गया था अतः इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश संवर्ग प्रदान करते हैं:--

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि	चयन सूची वर्ष
सर्वश्री			
1.	अरूण कुमार गुप्ता	02.02.1957	2005
2.	वजीह अहमद	13.02.1957	2009A
3.	जितेन्द्र कुमार शुक्ला	30.06.1961	2010
4.	बलि करन सिंह यादव	07.08.1959	2011

2. यह नियुक्तियां अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

हरीश चन्द्र राय, अवर सचिव

दिनांक 4 मार्च 2013

सं. आई-14011/21/2012-आईपीएस-1(I)--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 15.02.2013 को चयन समिति की दिनांक 26.12.2012 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2011 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के तमिलनाडु संवर्ग में 4 मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु तमिलनाडु पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है:--

चयन सूची 2011

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि
सर्वश्री		
1.	जे. रविन्द्रन	01.02.1958
2.	एस. प्रभाकरन	03.05.1963
3.	ए. कयलविज्ञी	06.02.1969
4.	आर. चिन्नास्वामी	15.05.1963

2. उपर्युक्त चयन सूची माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल याचिका जो श्री टी. वेनमाथी एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य सरकार एवं अन्य द्वारा दायर एस.एल.पी. सं. 2459/2006 के परिणाम के अध्याधीन होंगी।

हरीश चन्द्र राय, अवर सचिव

सं. आई-14011/21/2012-आईपीएस-1(II)--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तमिलनाडु राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत तमिलनाडु संवर्ग प्रदान करते हैं:--

चयन सूची-2011

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि
सर्वश्री		
1.	जे. रविन्द्रन	01.02.1958
2.	एस. प्रभाकरन	03.05.1963
3.	ए. कयलविज्ञी	06.02.1969
4.	आर. चिन्नास्वामी	15.05.1963

2. उपर्युक्त नियुक्तियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल याचिका जो श्री टी. वेनमाथी एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य सरकार एवं अन्य द्वारा दायर एस.एल.पी. सं. 2459/2006 के परिणाम के अध्याधीन होंगी।

3. यह नियुक्तियां अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

हरीश चन्द्र राय, अवर सचिव

सं. आई-14011/32/2012-आईपीएस-1(I)--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 21.02.2013 को चयन समिति की दिनांक 26.12.2012 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2011 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के पश्चिम बंगाल संवर्ग में 11 मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु पश्चिम बंगाल पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है:--

चयन सूची-2011

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि
1	2	3
सर्वश्री		
1.*	सुनील कुमार हलदर	02.09.1958
2.	श्रीमती जैक्लीन डोरजी	27.02.1966

1	2	3
3#.	मृणाल मजूमदार	14.03.1969
4.	अमिताव बर्मा	01.01.1968
5.*	जयन्ता मुखर्जी	03.12.1972
6.	अरिन्दम दत्ता चौधरी	23.12.1970
7.	कंकर प्रोसाद बारूई	02.09.1973
8.	जॉय बिस्वास	01.03.1970
9.	श्याम सिंह	01.01.1979
10.	सुब्रत गंगोपाध्याय	20.11.1969
11.	नीलांजन बिस्वास	20.07.1973

*क्रम सं. 1 एवं 5 पर दिये गये नामों को उनके विरुद्ध लंबित आपराधिक मामले के निपटान तथा राज्य सरकार द्वारा उन्हें सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के अध्यधीन सूची में अनन्तिम रूप से शामिल किया गया है।

#क्रम सं. 3 पर दिये गये नाम को उसके विरुद्ध लंबित अनुशासनिक मामले के निपटान तथा राज्य सरकार द्वारा उन्हें सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के अध्यधीन सूची में अनन्तिम रूप से शामिल किया गया है।

हरीश चन्द्र राय, अवर सचिव

सं. आई-14011/32/2012-आईपीएस-1(II)--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पश्चिम बंगाल राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परीवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल संवर्ग प्रदान करते हैं:--

चयन सूची-2011

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि
	सर्वश्री	
1.	श्रीमती जैक्लीन डोरजी	27.02.1966
2.	अमिताव बर्मा	01.01.1968
3.	अरिन्दम दत्ता चौधरी	23.12.1970
4.	कंकर प्रोसाद बारूई	02.09.1973
5.	जॉय बिस्वास	01.03.1970
6.	श्याम सिंह	01.01.1979
7.	सुब्रत गंगोपाध्याय	20.11.1969
8.	नीलांजन बिस्वास	20.07.1973

2. यह नियुक्तियाँ अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

हरीश चन्द्र राय, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 2013

सं. 14015/7/2012-अ.भा.से.(I)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 8 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, वर्ष 2012 की प्रवर सूची के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावलियों के विनियम 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित गैर-राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत हरियाणा संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति कोट की रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5 के अंतर्गत 20.12.2012 को तैयार किए गए तथा विनियम 7(1) के तहत 21.02.2013 को अनुमोदित किए गए निम्नलिखित नाम को समाविष्ट करते हुए हरियाणा के गैर-राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की प्रवर सूची को अधिसूचित करते हैं:--

2012 की प्रवर सूची (01.01.2011 से 31.12.2011 के बीच उद्भूत हुई रिक्तियों के लिए)

श्री रिपुदमन सिंह दिल्ली

18.03.1971

2. उक्त प्रवर सूची माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष सुरेन्द्र पाल सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य द्वारा दायर की वर्ष 2010 की रिट याचिका सं. 5982 के परिणाम के अधीन है।

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

सं. 14015/7/2012-अ.भा.से.(I)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 8 और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परीवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा भर्ती नियमावली, 1954 के नियम 8(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, वर्ष 2012 की प्रवर सूची के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावलियों के विनियम 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के लिए हरियाणा के गैर-राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्य को भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगले आदेशों तक परीवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अन्तर्गत हरियाणा संवर्ग आवंटित करते हैं:--

2012 की प्रवर सूची (01.01.2011 से 31.12.2011 के बीच उत्पन्न हुई रिक्तियों के विरुद्ध)

श्री रिपुदमन सिंह दिल्ली

2. उक्त प्रवर सूची माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष सुरेन्द्र पाल सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य द्वारा दायर की वर्ष 2010 की रिट याचिका सं. 5982 के परिणाम के अधीन है।

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

दिनांक 28 फरवरी 2013

सं. 14015/46/2012-अ.भा.से.(I)-क--श्री एच. जी. श्रीवारा द्वारा दायर डब्ल्यू. पी. (सी) सं. 1594/2011 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 17.01.2012 के आदेश के अनुसरण में तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, विनियम 5(5) के तहत चयन समिति की दिनांक 25.10.2012 की सिफारिशों, जिन्हें विनियम 7(2) के तहत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 22.02.2013 को अनुमोदित किया गया था, के अनुसार चयन सूची, 2007 को संशोधित करते हैं जिसमें कर्नाटक सिविल सेवा के एक अधिकारी श्री एच. जी. श्रीवारा (जन्म तिथि 12.02.1953) के नाम को उक्त चयन सूची के क्रम सं. 6-ए पर श्री चक्रवर्ती मोहन के नाम के नीचे राज्य सरकार के परामर्श से उक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत कर्नाटक के भारतीय प्रशासनिक सेवा कोट में शामिल किया जाता है।

इस विभाग की दिनांक 04.04.2011 की अधिसूचना सं. 14015/27/2011-अ.भा.से. 1(ए) उक्त सीमा तक संशोधित है।

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

सं. 14015/46/2012-अ.भा.से.(I)-ख--श्री एच. जी. श्रीवारा द्वारा दायर डब्ल्यू. पी. (सी) सं. 1594/2011 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 17.01.2012 के आदेश के अनुसरण में तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, कर्नाटक राज्य सिविल सेवा के अधिकारी श्री एच. जी. श्रीवारा को इस विभाग की दिनांक 04.04.2011 की अधिसूचना सं. 14015/27/2011-अ.भा.से.-I(ख) के क्रम सं. 6-ए में रखते हैं।

उपर्युक्त के अनुसार इस विभाग की दिनांक 04.04.2011 की अधिसूचना सं. 14015/27/2011-अ.भा.से. 1(ख) संशोधित की जाती है।

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 नवम्बर 2012

सं. सीडीआर-II/560/3/2012--राष्ट्रपति, केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन संवर्ग के समूह-ख (सहायक अराजपत्रित) के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के समूह-ख (अधीक्षक राजपत्रित) में स्थानापन्न आधार पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	पदोन्नति की तारीख
1	2	3
1.	श्रीमती एस. एस. सगवेकर	25.09.2012
2.	श्री पंकज के मिस्त्री	21.09.2012

1	2	3
3.	श्री के. पी. शुक्ला	21.09.2012
4.	श्री जावेद अहमद	21.09.2012
5.	श्रीमती संगीता वर्मा	21.09.2012
6.	श्री एस. आर. एच. तक्वी	21.09.2012
7.	श्रीमती सुष्मा अरोड़ा	21.09.2012
8.	श्री एच. पटनायक	21.09.2012
9.	श्री एस. हल्दर	21.09.2012
10.	श्री एस. आर. सरकार	21.09.2012
11.	श्रीमती ऊषा सक्सेना	21.09.2012
12.	श्रीमती हरजिन्दर कौर	21.09.2012
13.	श्री गोपाल चौपड़ा	21.09.2012
14.	श्री एस. आर. भोरकर	21.09.2012
15.	श्रीमती पी. अरून्धती	21.09.2012
16.	श्री टी. बी. चन्द्रन	21.09.2012

नरेन्द्र सिंह, उप-पासपोर्ट अधिकारी
(संवर्ग तथा कल्याण)

सं. सीडीआर-II/560/3/2012--राष्ट्रपति केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन संवर्ग के समूह-ख (अधीक्षक, राजपत्रित) के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के समूह-ख (प्रदाता पासपोर्ट अधिकारी राजपत्रित) में स्थानापन्न आधार पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	पदोन्नति की तारीख
1.	श्रीमती आर. हेमालता	21.09.2012
2.	श्रीमती सरम्मा जेकोब	21.09.2012
3.	श्री के. कृष्णामूर्ति	21.09.2012
4.	श्री बी. डी. श्रीधर	21.09.2012
5.	श्री मुकेश कुमार वर्मा	21.09.2012
6.	श्रीमती ए. अक्षिका	21.09.2012
7.	श्री नीरज आनंद	01.10.2012
8.	श्री बी. एम. सिंह	21.09.2012
9.	श्री एस. पी. बदोनी	21.09.2012
10.	श्री लक्ष्मण सिंह	21.09.2012
11.	श्री आर. सी. शर्मा	21.09.2012
12.	श्रीमती सुनीता पुरोहित	21.09.2012
13.	श्री एस. गोविन्दराजू	21.09.2012
14.	श्रीमती के. हेमलता	21.09.2012
15.	श्री सरन्नपा तलवार	21.09.2012

नरेन्द्र सिंह, उप-पासपोर्ट अधिकारी
(संवर्ग तथा कल्याण पीवीए)

कार्यालय उप प्रोतोकॉल प्रमुख (एफ)

नई दिल्ली, दिनांक 22 फरवरी 2013

सं. डी-III/460/सीएफ-09/2012--भारत के राष्ट्रपति, चेन्नई में मेसिडोनिया गणराज्य के मानद कौंसल के रूप में श्री अरविन्द गुप्ता की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करते हैं।

श्री अरविन्द गुप्ता के कौंसली क्षेत्राधिकार में तमिलनाडु राज्य होगा, जिसका केन्द्र चेन्नई होगा।

दीपक मिगलानी, उप प्रोतोकॉल प्रमुख (एफ)

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 फरवरी 2013

सं. ए-35011/2/2012-ईडी--राष्ट्रपति, श्री सज्जाद वासी नकवी, भारतीय पुलिस सेवा (मध्य प्रदेश:1990) को दिनांक 08.02.2013 से 07.02.2018 (अपराह) तक पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति आधार पर 37,400--67,000/- + ग्रेड वेतन 10,000/- रु. के वेतन बैंड-4 में प्रवर्तन निदेशालय के पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई में विशेष प्रवर्तन निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. एन. सिंह, अवर सचिव

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 1 जनवरी 2013

सं. 2013 की 1 फा. सं. ए-32012/6/2012-प्रशा.-VI--निम्नलिखित सहायक आयकर आयुक्तों (कनिष्ठ वेतनमान) को एतद्वारा प्रत्येक के नाम के सामने उल्लिखित तारीख (तारीखों) से 15,600--39,000/- रु. (प्लस वेतन बैंड-3 में 6,600 रुपए का ग्रेड वेतन) के वेतनमान में आयकर उपायुक्त (वरिष्ठ समय वेतनमान) के रूप में काम देखने के लिए नियुक्त किया जाता है:

पिछले बैचों के अधिकारी:

क्र. सं.	नाम	कोड सं.	जन्म तिथि	एसटीएस प्रदान करने की तारीख
1	2	3	4	5
	सर्वश्री/श्रीमती			
1.	मोम्मद मुस्तफा	06535	10.05.1961	17.10.2012
2.	आर सम्पत	06536	12.10.1956	17.10.2012
3.	के रामास्वामी	06537	13.03.1955	17.10.2012
4.	आर के बराल	06612	20.08.1961	17.10.2012
5.	संजय मलिक	06632	27.10.1964	17.10.2012
6.	डी के प्रधान	06653	06.09.1960	17.10.2012

1	2	3	4	5
	सर्वश्री/श्रीमती			
7.	चरिस्तोफर जरोम सिंह	07511	30.09.1963	17.10.2012
8.	अभिजीत घोष	07513	07.08.1962	17.10.2012
9.	मुकेश जैन	07044	26.03.1982	17.10.2012
10.	मिलन्द वी राजगुरु	07552	15.12.1958	17.10.2012
11.	गोपालकिशन डी शर्मा	07556	27.02.1966	17.10.2012
12.	ए सी राउत	07568	15.11.1962	17.10.2012
13.	डी जी पंसारी	07581	10.12.1962	17.10.2012
14.	शिव श्रीनिवासन	07611	07.07.1966	17.10.2012

2008 बैच के अधिकारी:

	सर्वश्री/श्रीमती			
1.	ए सीताराम राव	07621	27.11.1963	01.01.2013
2.	एस कुमार सिंह एन	07623	25.08.1963	01.01.2013
3.	के आर नारायन	07624	22.11.1962	01.01.2013
4.	टी जी शिव कुमार	07628	20.07.1958	01.01.2013
5.	सी ईरान्ना	07629	01.01.1966	01.01.2013
6.	एस एन काबरा	07633	14.07.1964	01.01.2013
7.	आर पी सेलवम	07634	07.05.1957	01.01.2013
8.	बी सी मैदी	07636	21.12.1959	01.01.2013
9.	ए के बोरो	07637	01.09.1959	01.01.2013
10.	एन गुरमेल सिंह	07640	01.07.1963	01.01.2013
11.	आर वाई बलवाडे	07641	04.04.1967	01.01.2013
12.	टी सी मीणा	07645	10.05.1960	01.01.2013
13.	पी एन प्रसाद	07647	05.02.1954	01.01.2013
14.	सी मुरुगेशन	07648	25.09.1965	01.01.2013
15.	के एल सोलंकी	07649	21.07.1965	01.01.2013
16.	ओमप्रकाश	07651	01.12.1966	01.01.2013
17.	मिखाईल कुल्लु	07652	10.03.1959	01.01.2013
18.	डी के मीणा	07653	01.07.1961	01.01.2013
19.	भैरोलाल मीणा	07658	12.05.1954	01.01.2013
20.	बी एल मीणा	07660	01.01.1960	01.01.2013

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	सर्वश्री/श्रीमती					सर्वश्री/श्रीमती			
21.	डी ए चौरसिया	07663	16.04.1965	01.01.2013	52.	सी शिव कुमार	08016	28.08.1979	01.01.2013
22.	वर्गीश जोसफ	07665	05.04.1966	01.01.2013	53.	संजीव शर्मा	08517	30.06.1965	01.01.2013
23.	राजेश डी मेनन	07666	12.05.1966	01.01.2013	54.	ए डी कुलकर्णी	08518	19.07.1966	01.01.2013
24.	अय्यर अनन्तरामन एन बी	07667	22.09.1964	01.01.2013	55.	पी एस भल्ला	08519	25.05.1963	01.01.2013
25.	एम ए एम कृष्णन	07668	09.12.1965	01.01.2013	56.	सौरभ दुबे	08019	24.09.1980	01.01.2013
26.	टी के ईनामदार	07669	16.02.1963	01.01.2013	57.	ओमना कुट्टन	08520	27.06.1966	01.01.2013
27.	राजीव कुमार सिंह	07670	27.03.1964	01.01.2013	58.	एस मुदित मिथिलेश	08020	25.05.1984	01.01.2013
28.	अनील ए गुप्ता	07671	14.04.1965	01.01.2013	59.	पी एस गौतम	08021	14.05.1979	01.01.2013
29.	मंजीत कुमार	07672	15.02.1956	01.01.2013	60.	ए पी मणि	08523	01.11.1962	01.01.2013
30.	स्मिता वी नायर	07673	07.06.1966	01.01.2013	61.	ए एस हिवसे	08023	16.04.1982	01.01.2013
31.	बुद्धेश्वर डोले	08501	01.10.1956	01.01.2013	62.	जी एन सिंह	08524	13.11.1962	01.01.2013
32.	सारथा जी	08001	14.03.1981	01.01.2013	63.	एन डी गुप्ता	08024	31.08.1982	01.01.2013
33.	एल एम जिन्दल	08002	26.12.1982	01.01.2013	64.	प्रिंसी सिंगला	08025	15.11.1985	01.01.2013
34.	टी एम चकाला	08503	14.05.1966	01.01.2013	65.	बी आर मिश्रा	08526	15.03.1959	01.01.2013
35.	पी एस वालिया	08004	28.07.1982	01.01.2013	66.	रूपेश अग्रवाल	08026	01.09.1982	01.01.2013
36.	डॉ. कौमुदी पाटिल	08505	10.06.1967	01.01.2013	67.	एम आनन्द कुमार	08527	29.07.1964	01.01.2013
37.	डी कुमुता	08005	28.06.1978	01.01.2013	68.	बी एस राजपुरोहित	08528	17.10.1964	01.01.2013
38.	ए ज्योति रंजन सिंह	08506	01.03.1957	01.01.2013	69.	लीना लाल	08529	15.02.1966	01.01.2013
39.	सुगन्धा शर्मा	08006	16.09.1979	01.01.2013	70.	एस एन पांडे	08530	10.06.1966	01.01.2013
40.	जया गणेश के	08007	21.03.1979	01.01.2013	71.	एम एन कुमार शेटे	08030	09.03.1983	01.01.2013
41.	पी जी चौधरी	08508	23.04.1965	01.01.2013	72.	हरकमल सोही	08031	27.10.1982	01.01.2013
42.	बी एम वर्क	08008	06.07.1982	01.01.2013	73.	वी के चतुर्वेदी	08532	09.12.1965	01.01.2013
43.	निलंजन डे	08509	22.05.1968	01.01.2013	74.	दीपिका मोहन	08032	14.04.1984	01.01.2013
44.	दीपिका अरोड़ा	08009	19.08.1981	01.01.2013	75.	इन्द्रलाल माहेश्वरी	08533	01.05.1963	01.01.2013
45.	नीलम अग्रवाल	08010	07.11.1979	01.01.2013	76.	सुधा गुप्ता	08033	27.01.1983	01.01.2013
46.	स्मिता सिंह	08011	18.12.1975	01.01.2013	77.	मनोज चौहान	08034	04.01.1984	01.01.2013
47.	एस बी सिंह	08512	05.02.1962	01.01.2013	78.	सुमेश स्वानी	08535	11.06.1964	01.01.2013
48.	राजेश महाजन	08012	07.02.1982	01.01.2013	79.	नेहा	08035	06.08.1980	01.01.2013
49.	ए सिंह यादव	08013	21.12.1981	01.01.2013	80.	डी एस रावत	08536	25.06.1960	01.01.2013
50.	पुष्पेन्द्र कुमार	08514	31.05.1963	01.01.2013	81.	डी के जैन	08036	06.01.1980	01.01.2013
51.	स्मारक स्वैन	08014	03.07.1986	01.01.2013	82.	रंजन श्रीवास्तव	08538	19.06.1966	01.01.2013
					83.	वी एस नेगी	08539	24.07.1966	01.01.2013

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	सर्वश्री/श्रीमती					सर्वश्री/श्रीमती			
84.	शेलेन्द्र कुमार	08039	21.10.1982	01.01.2013	116.	ए. के. रावत	08562	13.02.1965	01.01.2013
85.	जे सी कुलहारी	08540	02.09.1960	01.01.2013	117.	जनार्दन एस	08062	07.08.1979	01.01.2013
86.	राजन कुमार सिंह	08041	10.01.1980	01.01.2013	118.	रवि प्रकाश	08563	27.04.1961	01.01.2013
87.	जे के चांदनानी	08542	01.08.1966	01.01.2013	119.	प्रियंका सिंगला	08063	02.02.1981	01.01.2013
88.	अनुभा ठाह	08042	06.12.1980	01.01.2013	120.	ए. एम. मित्तल	08064	12.02.1983	01.01.2013
89.	पी के सिंह	08543	28.06.1963	01.01.2013	121.	के. हरिगोविन्द	08565	22.05.1964	01.01.2013
90.	तमिल सेलवम एस	08043	04.12.1980	01.01.2013	122.	अब्दुल हकीम एम	08065	06.02.1979	01.01.2013
91.	एस सी मोहन्ती	08544	25.06.1965	01.01.2013	123.	पी. यू. चन्द्रकान्त	08066	12.08.1980	01.01.2013
92.	श्रीनिवासन राव वेना	08044	30.05.1980	01.01.2013	124.	डी चक्रवर्ती	08068	26.06.1981	01.01.2013
93.	कनव बाली	08545	21.09.1964	01.01.2013	125.	डी. वी. सुब्बाराव	08569	01.08.1963	01.01.2013
94.	विक्रम एस शर्मा	08045	30.06.1978	01.01.2013	126.	एस. ए. बशिष्ठ नारायण	08069	30.06.1979	01.01.2013
95.	एम एस परमार	08546	02.12.1966	01.01.2013	127.	टी. वी. गोपीकृष्णा	08570	08.08.1960	01.01.2013
96.	गौरव शर्मा	08046	19.01.1984	01.01.2013	128.	प्रमोद कुमार	08070	20.08.1982	01.01.2013
97.	मनीष गुप्ता	08047	17.06.1981	01.01.2013	129.	पद्मा राम	08071	10.05.1978	01.01.2013
98.	एन के बंसल	08548	10.05.1966	01.01.2013	130.	के. शिवाभाय्य राव	08572	10.02.1960	01.01.2013
99.	राजेन्द्र सिंह	08048	05.01.1978	01.01.2013	131.	अभिषेक नारंग	08072	21.06.1979	01.01.2013
100.	आर. एन. दीक्षित	08550	01.03.1955	01.01.2013	132.	वी. एम. महिधर	08573	21.08.1965	01.01.2013
101.	पी जे लावंड	08050	18.09.1982	01.01.2013	133.	डी. के. चौधरी	08074	10.01.1978	01.01.2013
102.	निशि पदमा	08051	29.12.1981	01.01.2013	134.	यू. उमेश कसार	08576	15.09.1965	01.01.2013
103.	शिव कुमार राय	08052	21.06.1979	01.01.2013	135.	प्रियदर्शिनी मिश्रा	08076	26.04.1982	01.01.2013
104.	एस पी पद्माकर	08553	13.07.1954	01.01.2013	136.	पुर्णेश गुरियानी	08077	15.02.1982	01.01.2013
105.	आर नामदेव	08053	11.02.1978	01.01.2013	137.	रविन्द्र	08578	13.03.1967	01.01.2013
106.	आशिष कुमार	08055	22.01.1980	01.01.2013	138.	हिमांशु शर्मा	08078	27.08.1981	01.01.2013
107.	यज्ञेश	08056	07.07.1980	01.01.2013	139.	एल. एम. माझी	08579	04.07.1961	01.01.2013
108.	ए के महाला	08557	09.06.1964	01.01.2013	140.	ए. के. ओझा	08079	05.11.1980	01.01.2013
109.	शिवानी बंसल	08057	18.01.1983	01.01.2013	141.	पवित्रन कुमार जे	08081	20.11.1983	01.01.2013
110.	ए पी सिंह दैया	08058	24.09.1975	01.01.2013	142.	अल्ताफ हुसैन	08082	01.01.1981	01.01.2013
111.	एम लोणापति	08559	10.10.1962	01.01.2013	143.	टी. रामालिंगम	08083	15.05.1981	01.01.2013
112.	रोहिनी डी	08059	03.06.1982	01.01.2013	144.	एस. एस. रामलिंग	08084	12.06.1975	01.01.2013
113.	बी पी श्रीवास्तव	08560	28.10.1965	01.01.2013	145.	यू. के. पंचमारम	08085	12.07.1974	01.01.2013
114.	बी. के. सिंह	08561	31.10.1966	01.01.2013	146.	पार्थ पी बर्मन	08586	05.10.1964	01.01.2013
115.	आस्था लक्ष्मी	08061	25.01.1983	01.01.2013					

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	सर्वश्री/श्रीमती					सर्वश्री/श्रीमती			
147.	गजेन्द्र सिंह	08086	11.05.1982	01.01.2013	177.	नयन ज्योति नाथ	08110	25.02.1982	01.01.2013
148.	पार्थ बी बसक	08587	06.06.1965	01.01.2013	178.	रोहित आनंद	08111	17.06.1981	01.01.2013
149.	मरपु नवीन	08088	21.06.1982	01.01.2013	179.	वी.एन. त्रिवेदी	08612	02.03.1963	01.01.2013
150.	एन. के. वार्ता सिंह	08089	06.03.1980	01.01.2013	180.	अनील कुमार	08112	19.07.1980	01.01.2013
151.	अजय कुमार	08090	14.07.1976	01.01.2013	181.	ए डी वाधवा	08613	15.10.1982	01.01.2013
152.	रामकृष्ण मीणा	08592	08.05.1966	01.01.2013	182.	डब्ल्यू एस मच्छिंद्रा	08113	25.12.1981	01.01.2013
153.	ए. रामा कार्तिकेयन एस	08092	20.06.1985	01.01.2013	183.	एस. के. जैन	08614	30.07.1965	01.01.2013
154.	ए. एस. संत	08593	01.12.1964	01.01.2013	184.	ए. के. डाहेरिया	08114	20.08.1981	01.01.2013
155.	अपुल जयसवाल	08093	09.03.1980	01.01.2013	185.	अशोक गौतम	08115	02.08.1975	01.01.2013
156.	ए. चिन्नाथाम्बी	08594	03.01.1967	01.01.2013	186.	वाई. आर. रावल	08617	11.09.1964	01.01.2013
157.	रजनीश यादव	08095	25.07.1979	01.01.2013	187.	आनन्द स्वरूप	08117	06.07.1976	01.01.2013
158.	जे. एक्स पीटर	08596	02.03.1962	01.01.2013	188.	मनोज कुमार	08118	15.09.1977	01.01.2013
159.	जय नाथ वर्मा	08097	05.09.1976	01.01.2013	189.	एच. बी. माल्लैया	08119	01.05.1976	01.01.2013
160.	आर. मुकुन्दन	08598	26.06.1966	01.01.2013	190.	डब्ल्यू. डी. सोनिडा	08120	20.12.1976	01.01.2013
161.	रोहित राज	08098	16.12.1978	01.01.2013	191.	एम. एन. राजू	08121	10.03.1982	01.01.2013
162.	ए. आनन्द कुमार	08599	13.03.1966	01.01.2013	192.	बी. नाहक	08622	10.06.1963	01.01.2013
163.	ललिता कुमार	08099	14.03.1980	01.01.2013	193.	वरवूरू श्रीधर	08122	15.06.1977	01.01.2013
164.	एम एम वामनराव	08100	01.06.1982	01.01.2013	194.	राजीवकिशन गुबगोत्रा	08623	18.04.1965	01.01.2013
165.	आर कविता	08101	20.07.1977	01.01.2013	195.	नेलपट्टला अशोक बाबू	08123	01.06.1974	01.01.2013
166.	रामकृष्ण केडिया	08102	24.02.1975	01.01.2013	196.	आर. कृष्णामूर्ति	08624	26.08.1954	01.01.2013
167.	जयंती अंगारकाणि जीडी	08104	14.11.1982	01.01.2013	197.	जे. एस. नागर	08625	20.05.1957	01.01.2013
168.	राजा घोष	08605	24.06.1965	01.01.2013	198.	एस. अम्बूसेलवम	08125	11.07.1982	01.01.2013
169.	अत्सेम अंसारी	08105	20.09.1979	01.01.2013	199.	आर. वी. ए. प्रसाद	08126	16.06.1983	01.01.2013
170.	मनोज कुमार सिंह	08606	10.04.1964	01.01.2013	200.	आर. के. मदनलाल	08627	12.01.1963	01.01.2013
171.	आर. अनिता	08106	11.12.1977	01.01.2013	201.	बी. के. विष्णु प्रिया	08127	26.02.1979	01.01.2013
172.	अभिजीत मिश्रा	08607	31.05.1968	01.01.2013	202.	एन. जे. व्यास	08628	16.05.1965	01.01.2013
173.	अजय जडेजा	08107	01.03.1983	01.01.2013	203.	बी. एस. अनन्त	08128	10.08.1982	01.01.2013
174.	लियाकत अलि अफाकी	08108	15.08.1977	01.01.2013	204.	के. एस. रानी	08629	12.09.1967	01.01.2013
175.	के. लक्ष्मी	08609	04.06.1969	01.01.2013	205.	एस. एस. प्रिया एम	08129	10.09.1977	01.01.2013
176.	वसीम यूआर रहमान	08109	26.01.1975	01.01.2013	206.	डी. प्रसाद राव	08630	09.01.1962	01.01.2013

1	2	3	4	5
	सर्वश्री/श्रीमती			
207.	आर. सतीश चन्द्र रामसेवक	08130	01.06.1976	01.01.2013
208.	ए. के. दुबे	08631	01.03.1959	01.01.2013
209.	अंकुर अल्या	08131	30.12.1981	01.01.2013
210.	संजय गोसाई	08632	28.07.1966	01.01.2013
211.	संदीप लाकड़ा	08132	10.05.1981	01.01.2013
212.	बैजनाथ सिंह	08633	03.10.1965	01.01.2013
213.	एल. पचुआ	08133	01.10.1981	01.01.2013
214.	पन्ना राय	08634	27.12.1959	01.01.2013
215.	श्रीधर डोरा	08134	03.03.1981	01.01.2013
216.	एस. नन्दन कौल	08635	02.05.1960	01.01.2013
217.	डी. के. श्रीवास्तव	08636	30.05.1966	01.01.2013
218.	सुरेन्द्र मीणा	08136	19.09.1979	01.01.2013
219.	सीमा मीना	08137	06.07.1980	01.01.2013
220.	अनीता मीना	08138	16.07.1984	01.01.2013
221.	सी. मनिकम	08639	20.04.1955	01.01.2013
222.	प्रतिभा मीना	08139	01.07.1981	01.01.2013
223.	रविन्द्रनाथ राय	08641	17.08.1957	01.01.2013
224.	के. हाउथांग	08141	28.10.1980	01.01.2013
225.	ए. के. मंडल	08642	03.05.1957	01.01.2013
226.	लालराम संगसिला	08142	01.02.1975	01.01.2013
227.	पी. एस. थुंगालेना	08143	02.05.1979	01.01.2013
228.	कपिल मंडल	08644	10.01.1966	01.01.2013
229.	अनुभव सिंह	08144	18.04.1983	01.01.2013
230.	भोपाल सिंह	08145	28.05.1976	01.01.2013
231.	गुमान सिंह नेगी	08646	02.01.1958	01.01.2013
232.	एन. एस. शशिधरन	08146	11.04.1981	01.01.2013

आनन्द उपाध्याय, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 2013

सं. ए-5/1/2013-एसईजेड--राष्ट्रपति, द्वारा डॉ. सफीना ए.एन, आईएस (बीएच : 97) को दिनांक 15.01.2013 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक 37,400--67,000/- (पीबी-4) + जीपी 8,700/- रु. के वेतनमान में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के

आधार पर विकास आयुक्त, कोचीन विशेष आर्थिक जोन, कोचीन के पद पर नियुक्त किया जाता है।

एस. एस. कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 19 फरवरी 2013

सं. ए-38013/1/2012-सर्वग-पूर्ण प्रभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर अपने नामों के सामने दी गई तारीख से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे :-

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि	अधिवर्षिता की तारीख
1.	श्रीमती सरिता सूद	18.02.1953	28.02.2013
2.	श्रीमती परवीन सूद	22.02.1953	28.02.2013

संजय शंकर, अवर सचिव

आर्थिक सलाहकार का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 2013

सं. ए-38012/02/2012-आ.स. (प्रशा. I)--वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार के कार्यालय में आर्थिक अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री राजेन्द्र कुमार पुरोहित अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 28 फरवरी, 2013 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

एस. एस. नेगी, आर्थिक सलाहकार

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 2013

सं. 04/2013 (फा. सं. ए-46011/1/2013-स्था.)--राष्ट्रपति, विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर श्री टी. एल. बालाकुमार, नियमित सहायक निदेशक, ग्रेड-I (गैर तकनीकी) को दिनांक 20.02.2013 (पूर्वाह्न) से रु. 15,600--39,100/- के पै-बैंड-3 + रु. 6,600/- के ग्रेड वेतन में वस्त्र आयुक्त के कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, मुंबई में पदोन्नति आधार पर उप निदेशक (गैर तकनीकी) (ग्रेड-ए राजपत्रित) के पद पर नियुक्त करते हैं। वे दिनांक 20.02.2013 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार बढ़ाया जा सकता है।

सुमिन्दर कौर, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 2013

सं. 23011/20/2012-एच.आर. II--राष्ट्रपति, महोदय दिनांक 26.11.2012 के डीओपीटी आदेश सं. 5/11/2011-सीएस. I (यू) में निहित शर्तों के अधीन श्री संजय श्रीवास्तव, अवर सचिव (तदर्थ) को चयन सूची 2009

के प्रति उर्वरक विभाग में दिनांक 26.11.2012 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

सौमेन्द्र चंदा, अवर सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 फरवरी 2013

सं. 11(1)/2011-स्थापना--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 18 जनवरी, 2013 के आदेश सं. 5/8/2012-सीएस.1 (यू) भाग-1 के द्वारा श्री अरविन्द मुखर्जी, अवर सचिव (सीएसएल 5230) का रोटेशनल ट्रांसफर पॉलिसी के तहत स्थानांतरण किए जाने पर उन्हें इस्पात मंत्रालय में सीएसएस के ग्रेड-1 (अवर सचिव) के रूप में दिनांक 22 फरवरी, 2013 (पूर्वाह्न) से नियुक्त किया जाता है।

सुनील प्रकाश, निदेशक

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 फरवरी 2013

सं. 22017/1/2011-स्थापना--केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के आवर्तन स्थानान्तरण के बारे में कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.12.2012 के का.ज्ञा. सं. 06/13/2012-सीएस.1 (एस), के अनुसरण में राष्ट्रपति, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी श्री राज व्रत आर्य को नियुक्त करते हैं तथा इन्हें 12.02.2013 (पूर्वाह्न) से 4,800/- के ग्रेड वेतन के साथ 9,300--34,800/- रु. के वेतनमान में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी के रूप में कोयला मंत्रालय के स्टाफ में शामिल कर लिया गया है।

आनन्द प्रकाश, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 2013

सं. ए-38014/20/2012-स्था.1--खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव श्री ओम प्रकाश बख्शी अधिवर्षिता की आयु होने पर 28 फरवरी, 2013 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

अरूण कुमार सिंह, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली-110108, दिनांक 21 फरवरी 2013

सं. ए-22020/02/2013-के.स्वा.सेवा-IV--राष्ट्रपति, श्री प्रणव मुखर्जी दिनांक 8 फरवरी, 2013 से प्रो. (डॉ.) हर्षवर्धन आजाद, नेत्र रोग विभाग के प्रमुख एवं प्रोफेसर, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नेत्र रोग विज्ञान विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), अंसारी नगर, नई दिल्ली को उनके मानद चिकित्सकों/शल्य चिकित्सक के पैनल में उनके कार्यावधि अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 1 फरवरी 2013

सं. ए-38012/05/2012-स्था. I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव के पद पर तैनात श्री पी. के. प्रधान, आईएस (डब्ल्यू बी : 77), 31 जनवरी, 2013 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए।

अनिल कुमार, अवर सचिव

पंचायती राज मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 फरवरी 2013

सं. ए-19011/11/2012-स्था.--राष्ट्रपति महोदय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के आदेश सं. 5/9/2012-सीएस. आई (यू) के अनुसरण में, श्री अरविन्द कुमार मिश्रा, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अनुभाग अधिकारी को 30 अक्टूबर, 2012 पूर्वाह्न से पे बैंड (पीबी-3) के तहत 15,600--39,100/- रु. जमा 6,600/- रु. के ग्रेड पे में पंचायती राज मंत्रालय में बतौर अवर सचिव (तदर्थ) नियुक्त करते हैं।

जी. एस. चित्रा, अवर सचिव

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 जनवरी 2013

सं. पी.एफ./1/9-प्रशा.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.10.2012 के आदेश सं. 5/9/2012-सी.एस.आई (यू) के अनुसार राष्ट्रपति, ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के श्री इंदु भूषण लेंका, अनुभाग अधिकारी (एसएसएल सं. 7154) को 12 नवम्बर, 2012 के पूर्वाह्न से 31.5.2013 तक या इस पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, वेतन बैंड 3 : रु. 15,600--39,100/- जमा 6,600/- रु. ग्रेड वेतन में सीएसएस के ग्रेड-1 (अवर सचिव) के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री इंदु भूषण लेंका की नियुक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के उक्त आदेश में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार है।

राजीव सबरवाल, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 फरवरी 2013

सं. ए-12025/(1)/1/2010-स्था. II--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में श्री एस. पी. मिश्रा, सहायक प्रचार अधिकारी, गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक का कार्यालय, नई दिल्ली को 15,600--39,100/- रु. के वेतनमान के साथ पे-बैंड-3 में 6,600/- रु. की ग्रेड पे (सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय) के साथ 01.02.2013 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में नशीली दवा दुरुपयोग निवारण प्रभाग में उप निदेशक (मीडिया) के रूप में नियुक्त करते हैं।

दयानिधि जोशी, अवर सचिव

दिनांक 22 फरवरी 2013

सं. ए-12034/9/2012-स्था. II--राष्ट्रपति, श्री पी. दुर्गा प्रसाद, पुत्र स्वर्गीय श्री पागडाला वेनुगोपाल, सेवानिवृत्त सीईओ, जिला परिषद, आन्ध्र प्रदेश सरकार और आवासीय पता मकान सं. 6-3-597/जी, गुलशन-ई-फातिमा, वेंकट रमन कालोनी, खैरातबाग, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश), को माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम

नाईक) के अपर निजी सचिव के रूप में 04.01.2013 (पूर्वाह्न) से वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/- रु.) में 6,600/- रुपए के ग्रेड वेतन के साथ मंत्री के कार्यकाल के सह-सत्रावसान तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

दयानिधि जोशी, अवर सचिव

दिनांक 25 फरवरी 2013

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

सं. ए-42018/45/2009-स्था.-I (पार्ट)--सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) के अनुसार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केन्द्रीय जनसूचना अधिकारियों की संशोधित सूची इस प्रकार है :--

क्र. सं.	व्यूरो/प्रभाग	नाम	पदनाम	दूरभाष संख्या	विषय मामला
1	2	3	4	5	6
		सर्वश्री/श्रीमती			
1.	प्रशासन	दयानिधि जोशी	अवर सचिव	23382184	(i) सीआर, रिकार्ड एवं रोकड़ मामलों को छोड़कर मंत्रालय का प्रशासन/स्थापना (ii) विवेकाधीन निधि से संबंधित सभी मामले।
		एस. के. शर्मा	अवर सचिव	23382895	सीआर, रिकार्ड एवं रोकड़ से संबंधित सभी मामले।
2.	अनुसूचित जाति विकास	पी. एल. नेगी	निदेशक	23385491	(i) सतर्कता यूनिट (ii) डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान (iii) बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान (iv) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (v) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (vi) अनुसूचित जाति विकास निगम से संबंधित सभी मामले।
3.		चैतन्य मूर्ति	निदेशक	23070095	(i) हाथ से मैला साफ करने वाले व्यक्तियों के लिए पुनर्वास योजना (ii) दलित कार्य संबंधी मंत्रियों की समिति से संबंधित कार्य (iii) कारपोरेट सैल (iv) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (v) निजी क्षेत्र में सकारात्मक कार्रवाई, आरक्षण, और (vi) संसदीय कार्य से संबंधित सभी मामले।
4.		ज्ञानेन्द्र कुमार द्विवेदी	निदेशक	23387539	(i) अनुसूचित जाति उप योजना (ii) अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की योजना से संबंधित सभी मामले।
5.		शाम सुन्दर गुप्ता	उप सचिव	23382774	(i) अनुसूचित जाति के बालक एवं बालिकाओं के लिए बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (ii) अनुसूचित जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए कोचिंग एवं संबद्ध योजना (iii) उत्कृष्ट श्रेणी शिक्षा (iv) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए योग्यता उन्नयन से संबंधित सभी मामले।
6.		टी. बी. ए. राम	उप सचिव	23387430	(i) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (ii) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना (iii) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों

1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री/श्रीमती				
					के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना (iv) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना (v) अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना (vi) अनुसूचित जाति विकास ब्यूरो के स्वचलन से संबंधित सभी मामले।
7.	एम. ए. मुरलीधरन	उप सचिव	23388519	(i) एनसीएससी से संबंधित प्रशासनिक कार्य, संयुक्त संवर्ग (ii) अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की योजना (iii) आरआई सैल और (iv) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग से संबंधित सभी मामले।	
8.	कन्हैया लाल	अवर सचिव	23388511	(i) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1956 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा (ii) अनुसूचित जातियों की सूचियों के संशोधन से संबंधित सभी मामले।	
9.	समाज रक्षा लाल संगलूर	निदेशक	23383256	(i) "मद्यपान एवं नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग निवारण संबंधी योजना" और "वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम योजना" के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान की स्वीकृति (ii) वरिष्ठ नागरिक एवं नशीली दवा दुरुपयोग निवारण से संबंधित नीतिगत मामले (iii) राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के प्रशासनिक मामलों से संबंधित सभी मामले।	
10.	जे. के. साहू	अवर सचिव	23388837	(i) समाज रक्षा - समन्वयन (ii) माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 का कार्यान्वयन (iii) निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों की स्थापना के लिए प्रस्तावित नई योजना से संबंधित सभी मामले।	
11.	औजेन्दर सिंह	अवर सचिव	23073703	(i) भिक्षावृत्ति (ii) ट्रांसजेंडर/नपुंसक (iii) एनएसएसओ के सहयोग से देश में नशीली दवा दुरुपयोग के विस्तार, पैटर्न एवं रुझानों पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण से संबंधित सभी मामले।	
12.	पिछड़ा वर्ग सुरेखा साहू	निदेशक	23753404	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के राहत एवं पुनर्वास से संबंधित सभी मामले। (i) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक-पूर्व/मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की केन्द्रीय प्रायोजित योजना (ii) अन्य पिछड़े वर्गों के बालक एवं बालिकाओं हेतु छात्रावास निर्माण की योजना और (iii) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की केन्द्रीय क्षेत्र योजना (iv) राष्ट्रीय अनधिसूचित खानाबदोश एवं अर्ध-खानाबदोश जनजाति आयोग (v) एनबीसीएफडीसी और (vi) पिछड़ा वर्ग ब्यूरो के समन्वयन से संबंधित सभी मामले।	
13.	सी. वी. एल. एन. प्रसाद	उप सचिव	23753405	(i) अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों का सम्मिलन तथा उससे संबंधित मामले (ii) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (iii) आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग (iv) अन्य पिछड़े वर्गों की नीति से संबंधित सभी मामले।	

1	2	3	4	5	6
14.	आईएफडी	सर्वश्री/श्रीमती संदीप कुमार गुप्ता	उप सचिव	23389474	आंतरिक वित्त प्रभाग से संबंधित सभी विषय।
15.		सन्यासी प्रधान	उप सचिव	23381930	आंतरिक वित्त प्रभाग एवं बजट से संबंधित सभी मामले।
16.	आयोजना एवं सांख्यिकी प्रभाग	डॉ. (सुश्री) मधुमाला चट्टोपाध्याय	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	23385037	आयोजना एवं सांख्यिकी से संबंधित सभी विषय।
17.	समन्वय	अरविन्द पी. सिंह	अवर सचिव	23386981	मंत्रालय के समन्वयन एवं सुविधा केन्द्र (लोक शिकायत एवं आरटीआई) तथा समन्वय अनुभाग से संबंधित सभी मामले।
निःशक्तता कार्य विभाग					
18.	निःशक्तता कार्य विभाग	डी. के. पाण्डा	अवर सचिव	23381641	(i) पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन (ii) विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार (iii) न्यायालय मामले (iv) राष्ट्रीय नीति पर उत्तरवर्ती कार्रवाई (v) विकलांग व्यक्तियों के लिए सुगम्यता (vi) पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 का संशोधन (vii) सीसीडीपी कार्यालय (viii) अंतर्राष्ट्रीय समन्वयन - निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, जीपीडीडी, द्विपक्षीय परियोजनाएं (ix) विकलांग व्यक्तियों के लिए निजी क्षेत्र में नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन योजना (x) भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 (xi) भारतीय पुनर्वास परिषद (xii) न्यास निधि (xiii) पीडब्ल्यूडी अधिनियम के कार्यान्वयन की योजना (xiv) "अंतर्चक्षु" गणतंत्र दिवस परेड झांकी और 'समर्थ' राष्ट्रीय उत्सव से संबंधित सभी मामले।
19.		ओ. पी. डोगरा	उप सचिव	23071374	(i) दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना (ii) जांच समिति (iii) डीडीआरसी (iv) विकलांग व्यक्तियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (v) विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना से संबंधित सभी मामले।
20.		जगदीश कुमार	उप सचिव	23386220	(i) संयुक्त पुनर्वास केन्द्रों सहित राष्ट्रीय संस्थान (ii) भारतीय मेरुदंड क्षति केन्द्र (iii) एडिप योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक यंत्रों एवं उपकरणों की खरीद हेतु सहायता की योजना (iv) भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (v) द्विपक्षीय समझौता और (vi) डीआरसी/आरआरटीसी के बंद होने के बाद उनके लंबित मामले (vii) राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (viii) राष्ट्रीय निधि (ix) राष्ट्रीय विकलांगजन वित्त एवं विकास निगम (x) विकलांगता प्रभाग का समन्वयन (xi) विकलांगता कार्य के समन्वयन से संबंधित सभी मामले।

2. किसी सीपीआई ओ के अवकाश आदि के दौरान उनका संपर्क अधिकारी सीपीआईओ के रूप में कार्य करेगा।

3. संयुक्त सचिव स्तर के संबंधित अधिकारी अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। निःशक्तता कार्य विभाग के मामले में श्री के. वी. एस. राव, निदेशक (डीडी) अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

दयानिधि जोशी, अवर सचिव

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 26 फरवरी 2013

सं. ए-53011/7/2012-स्था.--राष्ट्रपति, श्री देवेश देवल, आईएएस (एमटी: 2004) को दिनांक 21 फरवरी, 2013 से अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, भारत सरकार के अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्री देवेश देवल, आईएएस (एमटी: 2004), अतिरिक्त निजी सचिव, माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री की नियुक्ति अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के कार्यकाल के साथ सहकालिक आधार पर अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक के लिए है।

3. श्री देवेश देवल, आईएएस (एमटी: 2004), अतिरिक्त निजी सचिव, माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 03 सितम्बर, 2008 के का. ज्ञा. सं. 2/22(ख)/2008-स्था. (वेतन-II) तथा दिनांक 28 मई, 2009 के का. ज्ञा. सं. 2/23/2008-स्था. (वेतन-II) के संदर्भ में अधिकतम 4,000/- रु. प्रतिमाह के अध्यधीन मूल वेतन के 10% की दर से प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता दिया जाएगा।

मैत्रेयी राय, उप सचिव

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 दिसम्बर 2011

विषय : सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2010 के परिणाम के आधार पर भारतीय डाक व तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह "क" की नियुक्ति।

सं. 7-03/2009-एसईए-1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2010 के आधार पर श्रीमती अंजु लता (रैंक नं. 515) (सामान्य) को भारतीय डाक व तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह "क" के कनिष्ठ समयमान में 15,600--39,100/- + 5,400/- रु. के वेतनमान (पे बैंड-3) में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं :-

- (i) यह नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम अधिकारी के निर्णय पर बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें यथास्थिति या तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा या उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस पद पर वे लियन पर हैं।
- (ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि उनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पति/पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पति/पत्नी के रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया हो तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अध्यधीन होगी।

(iii) महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र में इस आशय की घोषणा प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन की जाएगी कि यदि उसने किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी एक पत्नी जीवित है, से विवाह किया है तो यह नियुक्ति इस संबंध में निर्धारित शर्तों के लागू होने से उसे प्रदान की गई छूट की शर्त के अधीन होगी।

(iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एनआईसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।

(v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठ अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी की शपथ लेना।

(vi) उक्त नियुक्ति के तहत अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।

(vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए नियमों और आदेशों द्वारा अभिशासित होंगी।

2. नियुक्ति की यह पेशकश अनंतिम है जो संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात् दूरसंचार विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि कर दिए जाने और शैक्षणिक अर्हता इत्यादि के कतिपय दस्तावेजों के विभाग द्वारा सत्यापन के अध्यधीन होगी।

3. (क) यदि उनके मामले में सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 20 के तहत यथापरिकल्पित जांच लंबित है तो सेवा में उनकी नियुक्ति उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई इस जांच के आधार पर उनके योग्य पाए जाने के अध्यधीन होगी।

3. (ख) यदि किसी भी समय उनकी योग्यता के संबंध में उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रमाण-पत्र या दस्तावेज ठीक नहीं पाया जाता है अथवा उनकी योग्यता के संबंध में कोई भी सूचना/तथ्यात्मक सामग्री छुपाई गई है/गलत प्रस्तुत की गई है, तो संगत नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति को किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई के प्रति बिना किसी भेदभाव के तत्काल रद्द किया जा सकता है।

4. इस प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में इस विभाग को निश्चित रूप से सूचित किया जाए। यदि उसे यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार्य हो तो उसके द्वारा महाप्रबंधक (प्रशिक्षण एवं वित्त) दूरसंचार विभाग एनआईसीएफ, गाजियाबाद को रिपोर्ट की जाए। यदि वह इस नियुक्ति प्रस्ताव के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर अपना कार्यभार नहीं संभालता/संभालती है तो यह नियुक्ति प्रस्ताव व्यपगत हो जाएगा।

5. अभ्यर्थी जो बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल हो गए हैं उन्हें उनके बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल होने की तारीख से सेवा में माना जाएगा।

बी. एम. शर्मा, सहायक महानिदेशक (एसईए)

सेवा में

श्रीमती अंजु लता,
पत्नी श्री भुवेन्दर सिंह,
फ्लैट सं. डी-8/प्लॉट नं. ए-6,
टैक्स्ला एस्टेट, शालीमार गार्डन,
एक्स-2, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201005

सं. 7-03/2009-एसईए-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2010 के आधार पर श्री विक्रम सिंह (रैंक नं. 522) (सामान्य) को भारतीय डाक व दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा समूह "क" के कनिष्ठ समयमान में 15,600--39,100/- + 5,400/- रु. के वेतनमान (पे बैंड-3) में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं :-

- (i) वह नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम प्राधिकारी के निर्णय पर बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिसे सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें यथास्थिति या तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा या उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस पद पर वे लियन पर हैं।
- (ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि उनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पति/पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पति/पत्नी के रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया हो तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अध्यधीन होगी।
- (iii) महिला उम्मीदवार की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगी कि यदि उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पत्नी जीवित है तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अध्यधीन होगी।
- (iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एनआईसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।
- (v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठ अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी की शपथ लेना।
- (vi) उक्त नियुक्ति के तहत अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।
- (vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए संबंधित नियमों और आदेशों द्वारा अभिशासित होंगी।

2. नियुक्ति की यह पेशकश अनंतिम है जो संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात् दूरसंचार विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि कर दिए जाने और शैक्षणिक अर्हता इत्यादि के कतिपय दस्तावेजों के विभाग द्वारा सत्यापन के अध्यधीन होगी।

3. (क) यदि उनके मामले में सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 20 के तहत यथापरिकल्पित जांच लंबित है तो सेवा में उनकी नियुक्ति उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई इस जांच के आधार पर उनके योग्य पाए जाने के अध्यधीन होगी।

3. (ख) यदि किसी भी समय उनकी योग्यता के संबंध में उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रमाण-पत्र या दस्तावेज ठीक नहीं पाया जाता है अथवा उनकी योग्यता के संबंध में कोई भी सूचना/तथ्यात्मक सामग्री छुपाई गई है/गलत प्रस्तुत की गई है, तो संगत नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति को किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई के प्रति बिना किसी भेदभाव के तत्काल रद्द किया जा सकता है।

4. इस प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में इस विभाग को निश्चित रूप से सूचित किया जाए। यदि उसे यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार्य हो तो उसके द्वारा महाप्रबंधक (प्रशिक्षण एवं वित्त) दूरसंचार विभाग एनआईसीएफ, गाजियाबाद को रिपोर्ट की जाए। यदि वह इस नियुक्ति प्रस्ताव के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर अपना कार्यभार नहीं संभालता/संभालती है तो यह नियुक्ति प्रस्ताव व्यपगत हो जाएगा।

5. अभ्यर्थी जो बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल हो गए हैं उन्हें उनके बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल होने की तारीख से सेवा में माना जाएगा।

बी. एम. शर्मा, सहायक महानिदेशक (एसईए)

सेवा में

श्री विक्रम सिंह,
मकान नं. 63,
गांव एवं डाकखाना-अलीपुर
दिल्ली-110036

सं. 7-03/2009-एसईए-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2010 के आधार पर श्री बरजिन्दर सिंह (रैंक नं. 570) (सामान्य) को भारतीय डाक व दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा समूह "क" के कनिष्ठ समयमान में 15,600--39,100/- + 5,400/- रु. के वेतनमान (पे बैंड-3) में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं :-

- (i) वह नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम प्राधिकारी के निर्णय पर बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिसे सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें यथास्थिति या तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा या उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस पद पर वे लियन पर हैं।
- (ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि उनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पति/पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पति/पत्नी के रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया हो तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अध्यधीन होगी।
- (iii) महिला उम्मीदवार की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगी कि यदि उन्होंने

किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पत्नी जीवित है तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अध्वधीन होगी।

- (iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एनआईसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने के अध्वधीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।
- (v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठ अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रतिनिष्ठा/ईमानदारी की शपथ लेना।
- (vi) उक्त नियुक्ति के तहत अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।
- (vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए संबंधित नियमों और आदेशों द्वारा अभिशसित होंगी।

2. नियुक्ति की यह पेशकश अनंतिम है जो संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात् दूरसंचार विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि कर दिए जाने और शैक्षणिक अर्हता इत्यादि के कतिपय दस्तावेजों के विभाग द्वारा सत्यापन के अध्वधीन होगी।

3. (क) यदि उनके मामले में सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 20 के तहत यथापरिकल्पित जांच लंबित है तो सेवा में उनकी नियुक्ति उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई इस जांच के आधार पर उनके योग्य पाए जाने के अध्वधीन होगी।

3. (ख) यदि किसी भी समय उनकी योग्यता के संबंध में उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रमाण-पत्र या दस्तावेज ठीक नहीं पाया जाता है अथवा उनकी योग्यता के संबंध में कोई भी सूचना/तथ्यात्मक सामग्री छुपाई गई है/गलत प्रस्तुत की गई है, तो संगत नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति को किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई के प्रति बिना किसी भेदभाव के तत्काल रद्द किया जा सकता है।

4. इस प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में इस विभाग को निश्चित रूप से सूचित किया जाए। यदि उसे यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार्य हो तो उसके द्वारा महाप्रबंधक (प्रशिक्षण एवं वित्त) दूरसंचार विभाग एनआईसीएफ, गाजियाबाद को रिपोर्ट की जाए। यदि वह इस नियुक्ति प्रस्ताव के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर अपना कार्यभार नहीं संभालता/संभालती है तो यह नियुक्ति प्रस्ताव व्यपगत हो जाएगा।

5. अभ्यर्थी जो बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल हो गए हैं उन्हें उनके बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल होने की तारीख से सेवा में माना जाएगा।

बी. एम. शर्मा, सहायक महानिदेशक (एसईए)

सेवा में

श्री बरजिन्दर सिंह,
मकान नं. 101,
सेक्टर-4, रणजीत एवेन्यू,
अमृतसर, पंजाब-143001

सं. 7-03/2009-एसईए-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2010 के आधार पर श्री शैलेश बंसल (रैंक नं. 599) (सामान्य) को भारतीय डाक व दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा समूह "क" के कनिष्ठ समयमान में 15,600--39,100/- + 5,400/- रु. के वेतनमान (पे बैंड-3) में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं :-

- (i) वह नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम प्राधिकारी के निर्णय पर बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिसे सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें यथास्थिति या तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा या उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस पद पर वे लियन पर हैं।
- (ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि उनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पति/पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पति/पत्नी के रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया हो तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अध्वधीन होगी।
- (iii) महिला उम्मीदवार की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करने के अध्वधीन होगी कि यदि उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पत्नी जीवित है तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अध्वधीन होगी।
- (iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एनआईसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने के अध्वधीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।
- (v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठ अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी की शपथ लेना।
- (vi) उक्त नियुक्ति के तहत अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।
- (vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए संबंधित नियमों और आदेशों द्वारा अभिशसित होंगी।

2. नियुक्ति की यह पेशकश अनंतिम है जो संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात् दूरसंचार विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि कर दिए जाने और शैक्षणिक अर्हता इत्यादि के कतिपय दस्तावेजों के विभाग द्वारा सत्यापन के अध्वधीन होगी।

3. (क) यदि उनके मामले में सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 20 के तहत यथापरिकल्पित जांच लंबित है तो सेवा में उनकी नियुक्ति उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई इस जांच के आधार पर उनके योग्य पाए जाने के अध्वधीन होगी।

3. (ख) यदि किसी भी समय उनकी योग्यता के संबंध में उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रमाण-पत्र या दस्तावेज ठीक नहीं पाया जाता है अथवा उनकी योग्यता के संबंध में कोई भी सूचना/तथ्यात्मक सामग्री छुपाई गई है/गलत प्रस्तुत की गई है, तो संगत नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति को किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई के प्रति बिना किसी भेदभाव के तत्काल रद्द किया जा सकता है।

4. इस प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में इस विभाग को निश्चित रूप से सूचित किया जाए। यदि उसे यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार्य हो तो उसके द्वारा महाप्रबंधक (प्रशिक्षण एवं वित्त) दूरसंचार विभाग एनआईसीएफ, गाजियाबाद को रिपोर्ट की जाए। यदि वह इस नियुक्ति प्रस्ताव के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर अपना कार्यभार नहीं संभालता/संभालती है तो यह नियुक्ति प्रस्ताव व्यपगत हो जाएगा।

5. अभ्यर्थी जो बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल हो गए हैं उन्हें उनके बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल होने की तारीख से सेवा में माना जाएगा।

बी. एम. शर्मा, सहायक महानिदेशक (एसईए)

सेवा में

श्री शैलेश बंसल,
पुत्र श्री गोपाल बंसल,
वार्ड नं. 8, नजदीक राम भवन,
अवध बिहारी जी मंदिर के पीछे,
कोठपुतली, जयपुर, राजस्थान-303108

सं. 7-03/2009-एसईए-1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2010 के आधार पर सुश्री स्वाती शाही (रैंक नं. 648) (सामान्य) को भारतीय डाक व तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह "क" के कनिष्ठ समयमान में 15,600--39,100/- + 5,400/- रु. के वेतनमान (पे बैंड-3) में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं :--

- (i) वह नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम प्राधिकारी के निर्णय पर बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिसे सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें यथास्थिति या तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा या उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस पद पर वे लियन पर हैं।
- (ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि उनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पति/पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पति/पत्नी के रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया हो तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अध्वधीन होगी।

(iii) महिला उम्मीदवार की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करने के अध्वधीन होगी कि यदि उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पत्नी जीवित है तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अध्वधीन होगी।

(iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एनआईसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने के अध्वधीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।

(v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठ अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी की शपथ लेना।

(vi) उक्त नियुक्ति के तहत अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।

(vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए संबंधित नियमों और आदेशों द्वारा अभिशासित होंगी।

2. नियुक्ति की यह पेशकश अनंतिम है जो संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात् दूरसंचार विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि कर दिए जाने के अध्वधीन होगी।

3. (क) यदि उनके मामले में सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 20 के तहत यथापरिकल्पित जांच लंबित है तो सेवा में उनकी नियुक्ति उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई इस जांच के आधार पर उनके योग्य पाए जाने के अध्वधीन होगी।

3. (ख) यदि किसी भी समय उनकी योग्यता के संबंध में उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रमाण-पत्र या दस्तावेज ठीक नहीं पाया जाता है अथवा उनकी योग्यता के संबंध में कोई भी सूचना/तथ्यात्मक सामग्री छुपाई गई है/गलत प्रस्तुत की गई है, तो संगत नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति को किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई के प्रति बिना किसी भेदभाव के तत्काल रद्द किया जा सकता है।

4. इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना हर हालत में दें। यदि वे इस प्रस्ताव के जारी होने की तारीख से एक माह की अवधि भीतर सूचित नहीं करते तो यह प्रस्ताव व्यपगत हो जाएगा। यदि वह नियुक्ति की यह पेशकश स्वीकार करते हैं तो फाउंडेशन पाठ्यक्रम पूरा होने के तुरंत बाद महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं वित्त), दूरसंचार विभाग, एनआईसीएफ, गाजियाबाद की रिपोर्ट करें।

5. जिस उम्मीदवार ने फाउंडेशन पाठ्यक्रम में भाग लिया है उसे फाउंडेशन पाठ्यक्रम में शामिल होने की तारीख से सेवा में माना जाएगा।

बी. एम. शर्मा, सहायक महानिदेशक (एसईए)

सेवा में

सुश्री स्वाती शाही,
पुत्री श्री वीरेन्द्र शाही,
40, आवास विकास कालोनी,
बेतिहाय, गोरखपुर,
उत्तर प्रदेश-273001

इलैक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

(राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 फरवरी 2013

सं. 6156/एनआईसी/2012-प्रशा. II--महानिदेशक, रा.सू.वि. केंद्र एतद्वारा श्री मयंक पांडे (कर्मचारी कोड सं. 6156) का रासूवि केंद्र - उत्तर प्रदेश राज्य एकक, लखनऊ में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 'एस.बी.' के पद से त्यागपत्र दिनांक 23.11.2012 की अपराह्न से स्वीकार कर लिया है और उन्हें उसी दिन से ड्यूटी से कार्यमुक्त किया जाता है।

सुभाष दत्ता, उप निदेशक (प्रशा.-II)

मानकीकरण, परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 फरवरी 2013

सं. 16(1)/2011-पी ए (टी ए)--राष्ट्रपति महोदय के द्वारा निदेशालय के निम्नलिखित वैज्ञानिक डी, पीबी-3 15,600--39,100/- रु. + ग्रेड वेतन 7,600/- रु. को, पीबी-3 में 37,400--67,000/- रु. ग्रेड वेतन 8,700/- रु. के वेतनमान में उनके समक्ष अंकित दिनांक से वैज्ञानिक ई के पद पर श्री कमल जे. पी. लाकरा, वैज्ञानिक डी द्वारा माननीय कैट मद्रास बैंच के समक्ष फाईल किये OA सं. 1294/12 के परिणाम के अध्यधीन नियुक्त किया है :-

1. श्री सी. आर. कथाले (दिनांक 06.02.2013 पूर्वाह्न से)
2. श्रीमती पूनम सिंह -वही-
3. श्री हरचरण लाल -वही-
4. श्री एम. के. सक्सेना -वही-
5. श्री अशोक कुमार -वही-
6. श्री जितेन्द्र सहगल -वही-
7. श्री धर्मवीर सिंह -वही-
8. श्री शिव प्रसाद -वही-
9. श्री प्रह्लाद गुप्ता -वही-
10. श्री प्रदीप गुंजियाल -वही-
11. श्रीमती के. स्वरूपा (दिनांक 07.02.2013 पूर्वाह्न से)
12. श्रीमती मंजुला वाणी (दिनांक 06.02.2013 पूर्वाह्न से)
13. श्री पी. जगन मोहन राव -वही-
14. श्री के. एस. शाहजी (दिनांक 07.02.2013 पूर्वाह्न से)
15. श्री एम. वी. देशपांडे (दिनांक 06.02.2013 पूर्वाह्न से)
16. श्री एस. चट्टोपाध्याय -वही-

एस. रामाकृष्णन्, उप निदेशक

सं. 16(1)/2011-पी ए (टी ए)--राष्ट्रपति महोदय के द्वारा निदेशालय के निम्नलिखित वैज्ञानिक बी, पीबी-2 में 9,300--34,800/- रु. + ग्रेड वेतन 5,400/- रु. को, पीबी-3 में 15,600--39,100/- रु. ग्रेड वेतन 6,600/- रु. के वेतनमान में उनके समक्ष अंकित दिनांक से वैज्ञानिक सी के पद पर श्री कमल जे. पी. लाकरा, वैज्ञानिक डी द्वारा माननीय कैट मद्रास बैंच के समक्ष फाईल किये OA सं. 1294/12 के परिणाम के अध्यधीन नियुक्त किया है :-

1. श्रीमती तेलमा सकारिया (दिनांक 07.02.2013 पूर्वाह्न से)
2. श्री एस. एम. सरस्वती (दिनांक 06.02.2013 पूर्वाह्न से)
3. श्री चेताराम मीणा -वही-
4. श्री ओमप्रकाश सोनी -वही-

एस. रामाकृष्णन्, उप निदेशक

सं. 16(1)/2011-पी ए (टी ए)--राष्ट्रपति महोदय के द्वारा निदेशालय के निम्नलिखित वैज्ञानिक सी, पीबी-3 में 15,600--39,100/- रु. + ग्रेड वेतन 7,600/- रु. को, पीबी-3 में 15,600--39,100/- रु. ग्रेड वेतन 7,600/- रु. के वेतनमान में दिनांक 06.02.13 (पूर्वाह्न) से वैज्ञानिक डी के पद पर श्री कमल जे. पी. लाकरा, वैज्ञानिक डी द्वारा माननीय कैट मद्रास बैंच के समक्ष फाईल किये OA सं. 1294/12 के परिणाम के अध्यधीन नियुक्त किया है :-

1. श्री एस. सी. मिस्त्री
2. श्री महावीर सिंह
3. श्री जे. बी. चट्टोपाध्याय
4. श्री अशोक कुमार

एस. रामाकृष्णन्, उप निदेशक

भारतीय डाक विभाग

(कार्यालय मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, म. प्र. परिमंडल, भोपाल-462012)

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2012

विषय : म. प्र. डाक परिमंडल में सहायक डाक अधीक्षक की पदोन्नति तथा पदस्थापना।

सं. स्टाफ 16-1/डीपीसी एसपी/2012--मुख्य पोस्टमास्टर जनरल म. प्र. डाक परिमंडल भोपाल द्वारा निम्नलिखित डाकघर निरीक्षकों को पी.बी.-II (पे बैंड-2) रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड पे 4,600/- के वेतनमान में नियमित आधार पर सहायक डाक अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया जाता है। इनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से तथा अगले आदेश तक जारी रहेगी।

2. सहायक डाक अधीक्षक संवर्ग में पदोन्नत अधिकारियों को निम्नलिखित क्षेत्र आवंटित किए जाते हैं :--

क्र. सं.	नाम	अ.जा./अ. ज.जा.	वर्तमान संभाग/ कार्यालय	आवंटित क्षेत्र
1.	श्री डी. एस. चौहान	-	इंदौर (मोफसिल) संभाग	इंदौर क्षेत्र
2.	श्री राजेश कुमावत	-	इंदौर सिटी संभाग	इंदौर क्षेत्र
3.	श्री एस. के. नेमा	-	होशंगाबाद संभाग	भोपाल क्षेत्र

3. सामान्य निर्देश :--

- पुनर्आवंटन हेतु प्राप्त किसी भी प्रकार के आवेदन पर आगामी एक वर्ष तक विचार नहीं किया जाएगा। एक वर्ष की अवधि में ली गई छुट्टियों की गणना नहीं की जाएगी।
- संबंधित अधिकारियों का दायित्व है कि कार्यभार ग्रहण की रिपोर्ट की एक प्रति सहायक पोस्टमास्टर जनरल (अमला), परिमंडल कार्यालय भोपाल को भेजें।
- वरिष्ठता अथवा अन्य किसी प्रकार की शिकायत या प्रतिवेदन इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के 15 दिन के अंदर भेजे जाने चाहिए।
- इंदौर परिक्षेत्र के लिए आवंटित अधिकारियों के तैनाती आदेश सहायक निदेशक (अमला) इंदौर परिक्षेत्र द्वारा जारी किए जाएंगे।
- तैनाती आदेश जारी होने के 30 दिन के अंदर अधिकारियों को कार्यमुक्त किया जाए।
- यदि कोई अधिकारी इस पदोन्नति हेतु अनिच्छुक है तो वह अपनी असहमति लिखित रूप में परिमंडल कार्यालय भोपाल को तैनाती आदेश जारी होने से 30 दिन के भीतर भेजे अन्यथा यह समझा जाएगा कि उन्होंने पदोन्नति अस्वीकार कर दी है।

4. सतर्कता/अनुशासनात्मक प्रकरण, यदि कोई हो :--

कर्मचारी के संबंध में कोई सतर्कता या अनुशासनात्मक प्रकरण लंबित होने पर इस कार्यालय के स्पष्ट आदेश के बिना उसे कार्यमुक्त नहीं किया जाए। यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध दण्ड जारी है, तो उसे दण्डावधि समाप्त होने से पूर्व पदोन्नत न किया जाए। इस संबंध में एक रिपोर्ट तुरंत भेजी जानी चाहिए।

5. वेतन निर्धारण का विकल्प :

यदि अधिकारी एफ.आर. 22(I)(a)(1) के तहत अपने वेतन तिथि का निर्धारण चाहता है, तो वह पदोन्नति से एक माह के भीतर इस संबंध में अपना विकल्प दे सकता है। ए.सी.पी. योजना के तहत जिन कर्मचारियों को दूसरी वित्तीय पदोन्नति मिल चुकी है वे ए.सी.पी. संवर्ग में पदोन्नति पर वेतन निर्धारण हेतु पात्र नहीं हैं।

एम. एस. नेमा, सहायक पोस्टमास्टर जनरल (अमला)

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 मार्च 2013

सं. ए-31011/02/2012-सीएलएस-I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय श्रम सेवा (सीएलएस संवर्ग) के निम्नलिखित कनिष्ठ टाइम स्केल (जेटीएस) अधिकारियों की नियमित वरिष्ठ टाइम स्केल (एसटीएस ग्रेड) अधिकारी के पद पर पीबी-3 (15,600--39,100/-) + वेतन ग्रेड 6,600/- रुपये के समतुल्य वेतनमान में पदोन्नति, प्रत्येक के नाम के आगे दर्शाई गई तिथि से नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	नाम	पदोन्नति की तिथि
1	2	3
1.	श्री सरोज कुमार झा	30.07.2012
2.	श्री एस. के. वशिष्ठ	17.07.2012
3.	श्री पत्तन सलीम खान	31.07.2012
4.	श्री रेमिस थिरु	01.08.2012
5.	श्री जे. भागवत सिंह	03.08.2012
6.	श्रीमती मंजुलता बेहरा	04.08.2012
7.	श्रीमती संध्या नंदी	07.07.2012
8.	श्री पी. एक्का	03.08.2012
9.	सुश्री असीमा मिश्रा	17.08.2012
10.	श्रीमती रजनी कान्ता मिंज	04.08.2012
11.	श्री पी. वी. पी. एम. चेठ्टी	06.08.2012
12.	श्री एस. एस. हरदास	30.07.2012
13.	श्रीमती शकुन्तला पटनायक	09.07.2012
14.	श्री विनय कुमार सिन्हा	10.07.2012
15.	श्री सैयद कैवान जहा	01.08.2012
16.	श्री विजयनंदा	03.08.2012
17.	श्री ए. अंजनप्पा	03.08.2012
18.	श्री आर. एस. चौहान	08.08.2012
19.	श्री नारायण त्रिपाठी	25.07.2012
20.	श्री नज्जीर ए.	30.07.2012
21.	श्री आनंद कुमार	06.07.2012
22.	श्री वी. एम. सावंत	06.07.2012
23.	श्री आर. के. पाण्डा	02.08.2012
24.	श्री पी. एल. राजेन्द्रन	06.09.2012
25.	श्री एन. एस. पंवार	12.07.2012
26.	श्री जी. के. महापात्रा	24.07.2012
27.	श्री चन्द्र देव	18.09.2012

1	2	3
28.	श्री के. सी. सेठी	01.08.2012
29.	श्री के. शेखर	03.08.2012
30.	श्री पी. सी. परमार	13.07.2012

2. उपरोक्त अधिकारी की एसटीएस ग्रेड में पदोन्नति श्री ए. के. गोयल द्वारा माननीय कैट, चंडीगढ़ के समक्ष फाईल की गई ओए नं. 619-सीएच/2011, श्री एन. सी. परीदा द्वारा माननीय कैट, कटक के समक्ष फाईल की गई ओ.ए. सं. 751/2011 के एमए सं. 420/2012, माननीय कैट, गुवाहाटी के समक्ष श्री बी. बी. सिंह सामंता द्वारा फाईल की गई ओए संख्या 228/2011 और माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के समक्ष श्री अजय कुमार सिंह द्वारा फाईल की गई डब्ल्यूपीसीटी संख्या 15/2012 में दिए गए अंतिम निर्णय पर आधारित होगी।

अजय जोशी, अवर सचिव

1	2	3
3.	श्री अनिल कुमार सिन्हा	13.08.2012
4.	श्री यश पाल	09.08.2012
5.	श्री मार्टिन जोसेफ	16.08.2012

2. उपरोक्त अधिकारी की एसटीएस ग्रेड में पदोन्नति श्री ए. के. गोयल द्वारा माननीय कैट, चंडीगढ़ के समक्ष फाईल की गई ओए नं. 619-सीएच/2011, श्री एन. सी. परीदा द्वारा माननीय कैट, कटक के समक्ष फाईल की गई ओ.ए. सं. 751/2011 के एमए सं. 420/2012, माननीय कैट, गुवाहाटी के समक्ष श्री बी. बी. सिंह सामंता द्वारा फाईल की गई ओए संख्या 228/2011 और माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के समक्ष श्री अजय कुमार सिंह द्वारा फाईल की गई डब्ल्यूपीसीटी संख्या 15/2012 में दिए गए अंतिम निर्णय पर आधारित होगी।

अजय जोशी, अवर सचिव

सं. ए-31011/02/2012-सीएलएस-I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय श्रम सेवा (सीएलएस संवर्ग) के निम्नलिखित कनिष्ठ टाइम स्केल (जेटीएस) अधिकारियों की नियमित वरिष्ठ टाइम स्केल (एसटीएस ग्रेड) अधिकारी के पद पर पीबी-3 (15,600--39,100/-) वेतन ग्रेड 6,600/- रुपये के समतुल्य वेतनमान में नोशनल आधार पर 06.11.2009 अर्थात् एसटीएस ग्रेड में उनसे कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति की तिथि, से नियुक्त करते हैं। तथापि, उनकी वास्तविक पदोन्नति, प्रत्येक के नाम के आगे दर्शाई गई पदोन्नति पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से लागू होगी:--

क्र. सं.	नाम	पदोन्नति की तिथि
1	2	3
1.	श्री पी के वशिष्ठ	16.07.2012
2.	श्री सिया राम साहा	09.07.2012

सं. ए-31011/02/2012-सीएलएस-I--राष्ट्रपति, डॉ. ओंकार शर्मा जो वर्तमान में फेलो के रूप में वी.वी.जी.एन.एल.आई में प्रतिनियुक्ति पर हैं, उन्हें नियमित एसटीएस ग्रेड अधिकारी के रूप में 4.7.2012 अर्थात् उनके निकटतम कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति की तारीख से सीनियर टाइम स्केल (एसटीएस ग्रेड) में ठीक नीचे संबंधी नियमों (एनबीआर) के अंतर्गत प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान करते हैं।

2. उपरोक्त अधिकारी की एसटीएस ग्रेड में पदोन्नति श्री ए. के. गोयल द्वारा माननीय कैट, चंडीगढ़ के समक्ष फाईल की गई ओए नं. 619-सीएच/2011, श्री एन. सी. परीदा द्वारा माननीय कैट, कटक के समक्ष फाईल की गई ओ.ए. सं. 751/2011 के एमए सं. 420/2012, माननीय कैट, गुवाहाटी के समक्ष श्री बी. बी. सिंह सामंता द्वारा फाईल की गई ओए संख्या 228/2011 और माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के समक्ष श्री अजय कुमार सिंह द्वारा फाईल की गई डब्ल्यूपीसीटी संख्या 15/2012 में दिए गए अंतिम निर्णय पर आधारित होगी।

अजय जोशी, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 25th February 2013

No. RS/3/4/1/2013/13-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Komal Bhatnagar, Deputy Director (PSSS) in the Rajya Sabha Secretariat, to the grade of Joint Director (PSSS) in that Secretariat in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 8,000/- plus usual allowances as admissible under the rules on regular basis with effect from the forenoon of 23rd February, 2013 and until further orders.

S. RANGARAJAN, Joint Director

No. RS/6/4/2013/14-Perl.—Shri Sushanta Mallick has been appointed as Senior Private Secretary in the Rajya Sabha Secretariat on the personal staff of Chairman, Committee on Papers Laid on the Table (Shri D. P. Tripathi) in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from the forenoon of 12th February, 2013 and until further orders.

2. The appointment of Shri Sushanta Mallick is at the discretion of the present Chairman, Committee on Papers Laid on the Table and will be co-terminus with the term of his office.

S. RANGARAJAN, Joint Director

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560231, the 26th February 2013

No. 6/1(1)/2013-I—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the Space Applications Centre, Ahmedabad of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each:—

Sl. No.	Name	Date of Appointment
1	2	3
(Shri/Smt./Kum.)		
1.	Pritesh Kumar Sinha	28.09.2012
2.	Avi Vyas	28.09.2012
3.	Ishan Chaturvedi	28.09.2012
4.	Meher Jain	28.09.2012
5.	Saket Chawla	28.09.2012
6.	Singamaneni Anusha	28.09.2012
7.	Tanul Gupta	28.09.2012
8.	Anil Kumar	28.09.2012
9.	Aditya Chaudhary	28.09.2012

1	2	3
10.	Abhinav Kshitij	28.09.2012
11.	Debojyoti Ganguly	28.09.2012
12.	Ghag Parthmesh Pradip	28.09.2012
13.	Ananya Ray	28.09.2012
14.	Akhileshwar Reddy.P	31.10.2012

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

No. 7/1(1)/2013-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the Liquid Propulsion Systems Centre, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.07.2012 and until further orders:—

Sl. No.	Name	Post to which promoted
(Shri/Smt./Kum.)		
1.	B. K. Venkataramu	Outstanding Scientist
2.	Kamran Ahmed	Scientist/Engineer-SE
3.	K. M. Shanbhogue	Scientist/Engineer-SG
4.	B. Satheesh Kumar	Scientist/Engineer-SE
5.	Prasanth K.S	Scientist/Engineer-SD
6.	Narayan.R	Scientist/Engineer-G
7.	V. Krishna Murthy	Scientist/Engineer-SF
8.	G. Ravisankar	Scientist/Engineer-SE
9.	Saurabh Agrawal	Scientist/Engineer-SD
10.	Narendra Kumar Jha	Scientist/Engineer-SE
11.	Mary.G	Scientist/Engineer-SE
12.	Shreesha Holla.S	Scientist/Engineer-SD

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

No. 7/1(1)/2013-I—The President is pleased to appoint on promotion Shri MD. Hamza Ansari as Scientist/Engineer-SC in the Liquid Propulsion Systems Centre, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2012 and until further orders.

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

No. 8/1(1)/2013-I—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in

the ISRO Telemetry Tracking and Command Network, Bangalore of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of 28.09.2012 and until further orders:—

(Shri/Smt./Kum.)

1. Ravi Kumar
2. Ajit R. Kanale
3. Swapnil Mukund Yadav
4. Arushi Seth

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

No. 11/1(1)/2013-I—The President is pleased to appoint on promotion Smt. S.N. Bhagyalakshmi as Joint Director (O.L.) in the Department of Space, Bangalore in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.09.2012 and until further orders.

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

The 28th February 2013

No. 6/1(2)/2013-I—Consequent on attaining the age of Superannuation the following Scientists/Engineers in the Space Applications Centre, Ahmedabad of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of the dates mentioned against each:—

Sl. No.	Name	Post	Date of relief
(Shri/Smt./Kum.)			
1.	Jatin K Desai	Scientist/Engineer-SE	30.09.2012
2.	Dr. S. Panigrahy	Scientist/Engineer-H	31.10.2012
3.	A.S. Durai	Scientist/Engineer-G	31.10.2012
4.	A.S. Buch	Scientist/Engineer-SG	31.10.2012
5.	R.M. Makwana	Scientist/Engineer-SF	31.10.2012

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION

New Delhi-110001, the 22nd February 2013

No. A-12012/3/2012-Ad.I—The President is pleased to appoint the following candidates recommended by the Union Public Service Commission on the results of the Indian Statistical Services Examination, 2011 to Grade IV of the Indian Statistical Service (ISS) under Rule 8(1)(a)(1) of the ISS Rules, 1961 as amended from time to time in the Pay

Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + 5,400/- (Grade Pay) w.e.f. the date mentioned below:—

Sl. No.	Name	Designation	Date of joining
1.	Sh. Somnath Jana	Assistant Director (probationer)	27.12.2012
2.	Sh. Ranga Sreenivasulu	—do—	31.12.2012
3.	Sh. Amit Kumar	—do—	16.01.2013

2. They will be on probation for a period of two years.

K. R. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF LAW & JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 25th February 2013

No. A. 32015/1/2009-Admn.I(LD)—The President is pleased to appoint Shri Pramod Kumar, Assistant (Printing) in the Official Languages Wing of the Legislative Department, Ministry of Law & Justice to officiate as Superintendent (Printing) in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,600/- in the said Wing of the Legislative Department, Ministry of Law & Justice on ad hoc basis for a period of the six months with effect from the forenoon of 25th February, 2013 and until further orders.

2. This ad hoc appointment will not bestow on Shri Pramod Kumar any claim for regular appointment whatsoever to the grade of Superintendent (Printing) nor the ad hoc service rendered by him will count for the purpose of seniority in the grade or for his promotion to the next higher grade.

B. M. SHARMA, Dy. Secy.

No. A. 12026/12/2001-Admn.I(LD)—The President is pleased to appoint Shri R.S. Jayakrishnan, Superintendent (Legal) in the Legislative Department, Ministry of Law & Justice to officiate as Assistant Legislative Counsel (Malayalam) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- in the Official Languages Wing of the Legislative Department, Ministry of Law & Justice on ad hoc basis for a period of six months with effect from the forenoon of 1st February, 2013 and until further orders.

2. This ad hoc appointment will not bestow on Shri R.S. Jayakrishnan any claim for regular appointment whatsoever to the grade of Assistant Legislative counsel (Malayalam) nor the ad hoc service rendered by him will count for the purpose of seniority in the grade or for his promotion to the next higher grade.

B. M. SHARMA, Dy. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 28th February 2013

No. I-14011/10/2012-IPS.I(I)—Consequent upon the decision of the Union Public Service Commission, as intimated vide their letter No. 7/20/2012-AIS dated 22.02.2013, to declare the inclusion of the names of the following officers as unconditional in the Select Lists mentioned against their names, prepared for appointment to the Indian Police Service in the Review Selection Committee Meeting which was held on 12.12.2012 and in exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with 2nd proviso to sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to re-notify the appointment of the following members of the State Police Service of Uttar Pradesh, who already stand appointed and allocated to Uttar Pradesh cadre of Indian Police Service against the vacancies determined by Government of India for the Review Select Lists and with effect from the date mentioned against each of their names:—

Sl. No.	Name	Date of Birth	Select List	Date of Appointment
(S/Shri)				
1.	Anil Kumar Dass	05.01.1955	2005	01.07.2008
2.	Udai Pratap	01.01.1955	2007	07.12.2009
3.	Dr. Tehsildar Singh	22.01.1956	2009	07.12.2009

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

No. I-14011/10/2012-IPS.I(II)—Consequent upon the decision of the Union Public Service Commission, as intimated vide their letter No. 7/20/2012-AIS dated 22.02.2013, to declare the inclusion of the names of the following officers as unconditional in the Select Lists mentioned against their names, prepared for appointment to the Indian Police Service in the Selection Committee Meeting which was held on 12.12.2012 and in exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with 2nd proviso to sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint these members of Uttar Pradesh Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the Uttar Pradesh Cadre under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954:—

Sl. No.	Name	Date of Birth	Select List Year
1	2	3	4
(S/Shri)			
1.	Arun Kumar Gupta	02.02.1957	2005
2.	Wajeesh Ahmad	13.02.1957	2009A

1	2	3	4
3.	Jitendra Kumar Shukla	30.06.1961	2010
4.	Bali Karan Singh Yadav	07.08.1959	2011

2. These appointments will take effect from the date of issuance of this Notification.

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

The 4th March 2013

No. I-14011/21/2012-IPS.I (I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 15.02.2013, approved the Select List of the year 2011, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 26.12.2012, containing the names of the following State Police Service Officers of Tamil Nadu, towards filling up 4 (four) substantive vacancies in the Tamil Nadu Cadre of Indian Police Service:—

Select List 2011

Sl. No.	Name	Date of Birth
(Smt./Shri)		
1.	J. Ravindran	01.02.1958
2.	S. Prabhakaran	03.05.1963
3.	A. Kayalvizhi	06.02.1969
4.	R. Chinnasamy	15.05.1963

2. The aforementioned Select List will be subject to the final outcome of SLP No. 2459/2006 filed by Shri T. Venmathi & Others Vs. State of Tamil Nadu & Others in the Hon'ble Supreme Court of India.

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

No. I-14011/21/2012-IPS.I (II)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Tamil Nadu Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the Tamil Nadu Cadre Under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Select List 2011

Sl. No.	Name	Date of Birth
(Smt./Shri)		
1.	J. Ravindran	01.02.1958
2.	S. Prabhakaran	03.05.1963
3.	A. Kayalvizhi	06.02.1969
4.	R. Chinnasamy	15.05.1963

2. The aforementioned Select List will be subject to the final outcome of SLP No. 2459/2006 filed by Shri T. Venmathi & Others Vs. State of Tamil Nadu & Others in the Hon'ble Supreme Court of India.

3. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy

No. I-14011/32/2012-IPS.I (I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 21.02.2013, approved the Select List of the year 2011, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 26.12.2012, containing the names of the following State Police Service Officers of West Bengal, towards filling up 11 substantive vacancies in the West Bengal Cadre of Indian Police Service:—

Select List 2011

Sl. No.	Name	Date of Birth
(Smt./Shri)		
1.*	Sunil Kumar Halder	02.09.1958
2	Smt. Jacqueline Dorjee	27.02.1966
3.#	Mrinal Majumder	14.03.1969
4	Amitava Barma	01.01.1968
5.*	Jayanta Mukherjee	03.12.1972
6	Arindam Dutta Chowdhurey	23.12.1970
7	Kankar Prosad Barui	02.09.1973
8	Joy Biswas	01.03.1970
9	Shyam Singh	01.01.1979
10	Subrata Gangopadhyay	20.11.1969
11.	Nilanjan Biswas	20.07.1973

*The names at S. No. 1 and 5 have been included in the list provisionally subject to clearance in the criminal proceedings pending against them and grant of integrity certificates by the State Govt.

#The name at S. No. 3 has been included in the list provisionally subject to clearance in the disciplinary proceedings pending against them and grant of integrity certificates by the State Govt.

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

No. I-14011/32/2012-IPS.I (II)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment

by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of West Bengal Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the West Bengal Cadre Under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954:—

Select List 2011

Sl. No.	Name	Date of Birth
(Smt./Shri)		
1.	Smt. Jacqueline Dorjee	27.02.1966
2	Amitava Barma	01.01.1968
3.	Arindam Dutta Chowdhurey	23.12.1970
4.	Kankar Prosad Barui	02.09.1973
5.	Joy Biswas	01.03.1970
6.	Shyam Singh	01.01.1979
7.	Subrata Gangopadhyay	20.11.1969
8	Nilanjan Biswas	20.07.1973

2. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 27th February 2013

No. 14015/7/2012-AIS(I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(2) of Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 8 of Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997, the President is pleased to notify the Select List of Non-State Civil Service officers of Haryana containing the following name prepared on 20th December 2012 under Regulation 5 and approved on 21.02.2013, under Regulation 7(1) towards filling up promotion quota vacancies in Haryana cadre of IAS under Non-State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 3 of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2012 :—

Select List of 2012 (Against vacancies arisen between 01.01.2011 to 31.12.2011)

Shri Rippudaman Singh Dhillon 18.03.1971

2. The above select list is subject to the outcome of the W.P. No. 5982 of 2010 filed by Surrender Pal Singh Vs. UoI & Ors. before the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana.

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

No. 14015/7/2012-AIS(I)-B—In exercise of powers conferred by Rule 8(2) of Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 8 of Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997, and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules 1954, the President is pleased to appoint the following member of the Non-State Civil Service of Haryana to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 3 of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2012, on probation until further orders and to allocate him to the Haryana Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Select List of 2012 (Against vacancies arisen between 01.01.2011 to 31.12.2011)

Shri Rippudaman Singh Dhillon

2. The above appointment is subject to the outcome of the W.P. No. 5982 of 2010 filed by Surender Pal Singh Vs. UoI & Ors. before the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana.

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

The 28th February 2013

No. 14015/46/2012-AIS(I)-A—In pursuance to the order dated 17.01.2012 of the Hon'ble High Court of Delhi in W.P. (C) No. 1594/2011 filed by Shri H.G. Srivara and, in exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to modify the select list of 2007 to the extent that the name of Shri H.G. Srivara (DOB: 12.02.1953), a State Civil Service Officer of Karnataka is included in the said select list at S. No. 6-A below the name of Shri Chakravarthy Mohan as per the recommendations of the Selection Committee, dated 25.10.2012 under Regulation 5(5) which were approved by UPSC on 22.02.2013 under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in Karnataka Cadre of IAS under State Civil Service category, determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government.

This department's notification No. 14015/27/2011-AIS.I-(A) dated 04.04.2011 stands modified to the above extent.

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

No. 14015/46/2012-AIS(I)-B—In pursuance to the order dated 17.01.2012 of the Hon'ble High Court of Delhi in W.P. (C) No. 1594/2011 filed by Shri H.G. Srivara and in exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with

Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to modify this department's notification No. 14015/27/2011-AIS.I(B) dated 04.04.2011 to the extent that the name of Shri H.G. Srivara, a State Civil Service Officer of Karnataka is placed at S.No. 6-A in the said notification dated 04.04.2011.

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 16th November 2012

No. CDR-II/560/2/2012—The President is pleased to appoint the following officers of Group-B (Assistant-Non-Gazetted) of the Cadre of the Central Passport Organisation to Group-B (Superintendent-Gazetted) of the Central Passport Organisation in an officiating capacity with effect from the dates mentioned against their names :—

S. No.	Name	Date of Promotion
1.	Smt. S. S. Sagwekar	25.09.2012
2.	Sh. Pankaj K. Mistry	21.09.2012
3.	Sh. K. P. Shukla	21.09.2012
4.	Sh. Javed Ahmad	21.09.2012
5.	Smt. Sangeeta Verma	21.09.2012
6.	Sh. S. R. H. Taqvi	21.09.2012
7.	Smt. Sushma Arora	21.09.2012
8.	Sh. H. Pattnayak	21.09.2012
9.	Sh. H. Haldar	21.09.2012
10.	Sh. S. R. Sarkar	21.09.2012
11.	Smt. Usha Saxena	21.09.2012
12.	Smt. Harjinder Kaur	21.09.2012
13.	Sh. Gopal Chopra	21.09.2012
14.	Sh. S. R. Bhorkar	21.09.2012
15.	Smt. P. Arundhati	21.09.2012
16.	Sh. T. V. Chandran	21.09.2012

NARENDRA SINGH, Dy. Passport Officer
(Cadre & Welfare)

No. CDR-II/560/3/2012—The President is pleased to appoint the following officers of Group-B (Superintendent-Gazetted) of the Cadre of the Central Passport Organisation to Group-B (Passport Granting Officer-Gazetted) of the Central

Passport Organisation in an officiating capacity with effect from the dates mentioned against their names :—

S. No.	Name	Date of promotion
1.	Smt. R. Hemalatha	21.09.2012
2.	Smt. Saramma Jacob	21.09.2012
3.	Sh. K. Krishnamoorthy	21.09.2012
4.	Sh. B. D. Sridhar	21.09.2012
5.	Sh. Mukesh Kumar Verma	21.09.2012
6.	Sh. A. Ashika	21.09.2012
7.	Sh. Neeraj Anand	01.10.2012
8.	Sh. B. M. Singh	21.09.2012
9.	Sh. S. P. Badoni	21.09.2012
10.	Sh. Laxman Singh	21.09.2012
11.	Sh. R. C. Sharma	21.09.2012
12.	Smt. Sunita Purohit	21.09.2012
13.	Sh. S. Govindaraju	21.09.2012
14.	Smt. K. Hemalatha	21.09.2012
15.	Sh. Sharanappa Talwar	21.09.2012

NARENDRA SINGH, Dy. Passport Officer
(Cadre & Welfare PVA)

OFFICE OF DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 22nd February 2013

No. D-III/460/CF-09/2012—The President of India is pleased to recognize the appointment of Mr. Arvind Gupta as Honorary Consul of the Republic of Macedonia in Chennai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Arvind Gupta comprises the State of Tamil Nadu with the seat in Chennai.

DEEPAK MIGLANI, Dy. Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 21st February 2013

No. A-35011/2/2012-ED—The President is pleased to appoint Shri Sajjad Wasi Naqvi, IPS (MP : 1990) as Special Director of Enforcement, Directorate of Enforcement at Western Regional Office, Mumbai, on deputation basis in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- +G. P. Rs. 10,000/-, for a period of 5 (five) years w.e.f. 8.2.2013 to 7.2.2018 (AN) or until further orders whichever is earlier.

R. N. SINGH, Under Secy.

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 1st January 2013

No. 1 of 2013 (F. No. A-32012/6/2012-Ad.VI)—The following Assistant Commissioner of Income Tax (Junior Scale) are hereby appointed to officiate as Deputy Commissioner of Income Tax (Senior Time Scale) in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- (Plus Grade Pay of Rs. 6,600/- in Pay Band-3) with effect from the date(s) indicated against each :—

Officers of Earlier Batches :

S. No.	Name	Code No.	Date of Birth	Date of Grant of STS
S/Shri				
1.	Mohammed Mustafa	06535	10.05.1961	17.10.2012
2.	R. Sampath Kumar	06536	12.10.1956	17.10.2012
3.	K. Ramamuthy	06537	13.03.1955	17.10.2012
4.	R. K. Baral	06612	20.08.1961	17.10.2012
5.	Sanjay Mallick	06632	27.10.1964	17.10.2012
6.	D. K. Pradhan	06653	06.09.1960	17.10.2012
7.	Charistopher Jerome Singh	07511	30.09.1963	17.10.2012
8.	Abhijit Ghosh	07513	07.08.1962	17.10.2012
9.	Mukesh Jain	07044	26.03.1982	17.10.2012
10.	Miland V. Rajguru	07552	15.12.1958	17.10.2012
11.	Gopalkishan D. Sharma	07556	27.02.1966	17.10.2012
12.	A. C. Rout	07568	15.11.1962	17.10.2012
13.	D. G. Pansari	07581	10.12.1962	17.10.2012
14.	Shiva Srinivas	07611	07.07.1966	17.10.2012

Officers of 2008 Batch :

S. No.	Name	Code No.	Date of Birth	Date of Grant of STS
1	2	3	4	5
S/Shri				
1.	A. Seethrama Rao	07621	27.11.1963	01.01.2013
2.	S. Kumar Singh N.	07623	25.08.1963	01.01.2013
3.	K. R. Narayana	07624	22.11.1962	01.01.2013
4.	T. G. Shiva Kumar	07628	20.07.1958	01.01.2013
5.	C. Eranna	07629	01.01.1966	01.01.2013
6.	S. N. Kabra	07633	14.07.1964	01.01.2013
7.	R. P. Selvam	07634	07.05.1957	01.01.2013
8.	B. C. Medhi	07636	21.12.1959	01.01.2013
9.	A. K. Boro	07637	01.09.1959	01.01.2013
10.	N. Gurmel Singh	07640	01.07.1963	01.01.2013
11.	R. Y. Balwade	07641	04.04.1967	01.01.2013
12.	T. C. Meena	07645	10.05.1960	01.01.2013

1	2	3	4	5
13.	P. N. Prasad	07647	05.02.1954	01.01.2013
14.	C. Murugesan	07648	25.09.1965	01.01.2013
15.	K. L. Solanki	07649	21.07.1965	01.01.2013
16.	Om Prakash	07651	01.12.1966	01.01.2013
17.	Michael Kullu	07652	10.03.1959	01.01.2013
18.	D. K. Meena	07653	01.07.1961	01.01.2013
19.	Bhairon Lal Meena	07658	12.05.1954	01.01.2013
20.	B. L. Meena	07660	01.01.1960	01.01.2013
21.	D. A. Chourasia	07663	16.04.1965	01.01.2013
22.	Varghese Joseph	07665	05.04.1966	01.01.2013
23.	Rajesh D. Menon	07666	12.05.1966	01.01.2013
24.	Iyer Anantharaman N. V.	07667	22.09.1964	01.01.2013
25.	M. A. M. Krishnan	07668	09.12.1965	01.01.2013
26.	T. K. Inamdar	07669	16.02.1963	01.01.2013
27.	Rajeev Kumar Singh	07670	27.03.1964	01.01.2013
28.	Anil A. Gupta	07671	14.04.1965	01.01.2013
29.	Manjit Kumar	07672	15.02.1956	01.01.2013
30.	Smitha V. Nair	07673	07.06.1966	01.01.2013
31.	Bhudeswar Doley	08501	01.10.1956	01.01.2013
32.	Saratha G.	08001	14.03.1981	01.01.2013
33.	L. M. Jindal	08002	26.12.1982	01.01.2013
34.	T. M. Chackala	08503	14.05.1966	01.01.2013
35.	P. S. Walia	08004	28.07.1982	01.01.2013
36.	Dr. Kaumudi Patil	08505	10.06.1967	01.01.2013
37.	D. Kumutha	08005	28.06.1978	01.01.2013
38.	A. Jyoti Ranjan Singh	08506	01.03.1957	01.01.2013
39.	Sugandha Sharma	08006	16.09.1979	01.01.2013
40.	Jaya Ganesh K.	08007	21.03.1979	01.01.2013
41.	P. G. Chaudhury	08508	23.04.1965	01.01.2013
42.	B. M. Varkey	08008	06.07.1982	01.01.2013
43.	Nilanjan Dey	08509	22.05.1968	01.01.2013
44.	Deepika Arora	08009	19.08.1981	01.01.2013
45.	Neelam Agrawal	08010	07.11.1979	01.01.2013
46.	Smita Singh	08011	18.12.1975	01.01.2013
47.	S. B. Singh	08512	05.02.1962	01.01.2013
48.	Rajesh Mahajan	08012	07.02.1982	01.01.2013
49.	A. Singh Yadav	08013	21.12.1981	01.01.2013
50.	Pushpender Kumar	08514	31.05.1963	01.01.2013
51.	Smarak Swain	08014	03.07.1986	01.01.2013
52.	C. Siva Kumar	08016	28.08.1979	01.01.2013

1	2	3	4	5
53.	Sanjeev Sharma	08517	30.06.1965	01.01.2013
54.	A. D. Kulkarni	08518	19.07.1966	01.01.2013
55.	P. S. Bhalla	08519	28.05.1963	01.01.2013
56.	Saurabh Dubey	08019	24.09.1980	01.01.2013
57.	Omana Kuttan	08520	27.06.1966	01.01.2013
58.	S. Mudit Mithilesh	08020	25.05.1984	01.01.2013
59.	P. S. Gautam	08021	14.05.1979	01.01.2013
60.	A. P. Mani	08523	01.11.1962	01.01.2013
61.	A. S. Hiwase	08023	16.04.1982	01.01.2013
62.	G. N. Singh	08524	13.11.1962	01.01.2013
63.	N. D. Gupta	08024	31.08.1982	01.01.2013
64.	Princy Singla	08025	15.11.1985	01.01.2013
65.	B. R. Mishra	08526	15.03.1959	01.01.2013
66.	Rupesh Agrawal	08026	01.09.1982	01.01.2013
67.	M. Anand Kumar	08527	29.07.1964	01.01.2013
68.	B. S. Rajpurohit	08528	17.10.1964	01.01.2013
69.	Leena Lal	08529	15.02.1966	01.01.2013
70.	S. N. Pandey	08530	10.06.1966	01.01.2013
71.	M. N. Kumar Shete	08030	09.03.1983	01.01.2013
72.	Harkamal Sohi	08031	27.10.1982	01.01.2013
73.	V. K. Chaturvedi	08532	09.12.1965	01.01.2013
74.	Deepika Mohan	08032	14.04.1984	01.01.2013
75.	Inderlal Maheshwari	08533	01.05.1963	01.01.2013
76.	Sudha Gupta	08033	27.01.1983	01.01.2013
77.	Manoj Chauhan	08034	04.01.1984	01.01.2013
78.	Sumesh Swani	08535	11.06.1964	01.01.2013
79.	Neha	08035	06.08.1980	01.01.2013
80.	D. S. Rawat	08536	25.06.1960	01.01.2013
81.	D. K. Jain	08036	06.01.1980	01.01.2013
82.	Ranjan Srivastava	08538	19.06.1966	01.01.2013
83.	V. S. Negi	08539	24.07.1966	01.01.2013
84.	Shailendra Kumar	08039	21.10.1982	01.01.2013
85.	J. C. Kulhari	08540	02.09.1960	01.01.2013
86.	Rajan Kumar Singh	08041	10.01.1980	01.01.2013
87.	J. K. Chandnani	08542	01.08.1966	01.01.2013
88.	Anubhaa Tah	08042	06.12.1980	01.01.2013
89.	P. K. Singh	08543	28.06.1963	01.01.2013
90.	Tamil Selvam S.	08043	04.12.1980	01.01.2013
91.	S. C. Mohanty	08544	25.06.1965	01.01.2013
92.	Srinivasa Rao Vana	08044	30.05.1980	01.01.2013
93.	Kanv Bali	08545	21.09.1964	01.01.2013

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
94.	Vikram S. Sharma	08045	30.06.1978	01.01.2013	134.	U. Umesh Kasar	08576	15.09.1965	01.01.2013
95.	M. S. Parmar	08546	02.12.1966	01.01.2013	135.	Priyadarshi Mishra	08076	26.04.1982	01.01.2013
96.	Gaurav Sharma	08046	19.01.1984	01.01.2013	136.	Purnesh Gururani	08077	15.02.1982	01.01.2013
97.	Manish Gupta	08047	17.06.1981	01.01.2013	137.	Ravindra	08578	13.03.1967	01.01.2013
98.	N. K. Bansal	08548	10.05.1966	01.01.2013	138.	Himanshu Sharma	08078	27.08.1981	01.01.2013
99.	Rajendra Singh	08048	05.01.1978	01.01.2013	139.	L. M. Majhi	08579	04.07.1961	01.01.2013
100.	R. N. Dixit	08550	01.03.1955	01.01.2013	140.	A. K. Ojha	08079	05.11.1980	01.01.2013
101.	P. J. Lawand	08050	18.09.1982	01.01.2013	141.	Pavitrnan Kumar J.	08081	20.11.1983	01.01.2013
102.	Nishi Padma	08051	29.12.1981	01.01.2013	142.	Altat Hussain	08082	01.01.1981	01.01.2013
103.	Shiv Kumar Rai	08052	21.06.1979	01.01.2013	143.	T. Ramalingam	08083	15.05.1981	01.01.2013
104.	S. P. Padmakar	08553	13.07.1954	01.01.2013	144.	S. S. Ramling	08084	12.06.1975	01.01.2013
105.	R. Namdeo	08053	11.02.1978	01.01.2013	145.	U. K. Panchamram	08085	12.07.1974	01.01.2013
106.	Ashish Kumar	08055	22.01.1980	01.01.2013	146.	Partha P. Barman	08586	05.10.1964	01.01.2013
107.	Yagyesh	08056	07.07.1980	01.01.2013	147.	Gajendra Singh	08086	11.05.1982	01.01.2013
108.	A. K. Mahala	08557	09.06.1964	01.01.2013	148.	Partha B. Basak	08587	06.06.1965	01.01.2013
109.	Shivani Bansal	08057	18.01.1983	01.01.2013	149.	Marrapu Naveen	08088	21.06.1982	01.01.2013
110.	A. P. Singh Daia	08058	24.09.1975	01.01.2013	150.	N. K. Varta Singh	08089	06.03.1980	01.01.2013
111.	M. Logapathi	08559	10.10.1962	01.01.2013	151.	Ajay Kumar	08090	14.07.1976	01.01.2013
112.	Rohini D.	08059	03.06.1982	01.01.2013	152.	Ram Kishan Meena	08592	08.05.1966	01.01.2013
113.	B. P. Srivastava	08560	28.10.1965	01.01.2013	153.	A. Rama Karthikeyan S.	08092	20.06.1985	01.01.2013
114.	B. K. Singh	08561	31.10.1966	01.01.2013	154.	A. S. Sant	08593	01.12.1964	01.01.2013
115.	Aastha Lakshmi	08061	25.01.1983	01.01.2013	155.	Apul Jayaswal	08093	09.03.1980	01.01.2013
116.	A. K. Rawat	08562	13.02.1965	01.01.2013	156.	A. Chinnathambi	08594	03.01.1967	01.01.2013
117.	Janardhan S.	08062	07.08.1979	01.01.2013	157.	Rajneesh Yadav	08095	25.07.1979	01.01.2013
118.	Ravi Prakash	08563	27.04.1961	01.01.2013	158.	J. X. Peter	08596	02.03.1962	01.01.2013
119.	Priyanka Singla	08063	02.02.1981	01.01.2013	159.	Jai Nath Verma	08097	05.09.1976	01.01.2013
120.	A. M. Mittal	08064	12.02.1983	01.01.2013	160.	R. Mukundan	08598	26.06.1966	01.01.2013
121.	K. Harigovind	08565	22.05.1964	01.01.2013	161.	Rohit Raj	08098	16.12.1978	01.01.2013
122.	Abdul Hakeem M.	08065	06.02.1979	01.01.2013	162.	A. Anand Kumar	08599	13.03.1966	01.01.2013
123.	P. U. Chanrakant	08066	12.08.1980	01.01.2013	163.	Lalita Kumar	08099	14.03.1980	01.01.2013
124.	D. Chakraborty	08068	26.06.1981	01.01.2013	164.	M. M. Wamanrao	08100	01.06.1982	01.01.2013
125.	D. V. Subbarao	08569	01.08.1963	01.01.2013	165.	R. Kavitha	08101	20.07.1977	01.01.2013
126.	S. A. Bashist Narayan	08069	30.06.1979	01.01.2013	166.	Ram Krishn Kedia	08102	24.02.1975	01.01.2013
127.	T. V. Gopikrishna	08570	08.08.1960	01.01.2013	167.	Jayanthi Angayarkanni G. D.	08104	14.11.1982	01.01.2013
128.	Pramod Kumar	08070	20.08.1982	01.01.2013	168.	Raja Ghosh	08605	24.06.1965	01.01.2013
129.	Padma Ram	08071	10.05.1978	01.01.2013	169.	Atesham Ansari	08105	20.09.1979	01.01.2013
130.	K. Shiva Bhagya Rao	08572	10.02.1960	01.01.2013	170.	Manoj Kumar Singh	08606	10.04.1964	01.01.2013
131.	Abhishek Narang	08072	21.06.1979	01.01.2013	171.	R. Anita	08106	11.12.1977	01.01.2013
132.	V. M. Mahidhar	08573	21.08.1965	01.01.2013	172.	Avijit Mishra	08607	31.05.1968	01.01.2013
133.	D. K. Chaudhary	08074	10.01.1978	01.01.2013	173.	Ajay Jadeja	08107	01.03.1983	01.01.2013

1	2	3	4	5
174.	Liyaqat Ali Aafaqui	08108	15.08.1977	01.01.2013
175.	K. Lakshmi	08609	04.06.1969	01.01.2013
176.	Waseem U. R. Rehman	08109	26.01.1975	01.01.2013
177.	Nayanjyoti Nath	08110	25.02.1982	01.01.2013
178.	Rohit Anand	08111	17.06.1981	01.01.2013
179.	V. N. Trivedi	08612	02.03.1963	01.01.2013
180.	Anil Kumar	08112	19.07.1980	01.01.2013
181.	A. D. Wadhawan	08613	15.10.1982	01.01.2013
182.	W. S. Machchhindra	08113	25.12.1981	01.01.2013
183.	S. K. Jain	08614	30.07.1965	01.01.2013
184.	A. K. Deharia	08114	20.08.1981	01.01.2013
185.	Ashok Gautam	08115	02.08.1975	01.01.2013
186.	Y. R. Rawal	08617	11.09.1964	01.01.2013
187.	Anand Swaroop	08117	06.07.1976	01.01.2013
188.	Manoj Kumar	08118	15.09.1977	01.01.2013
189.	H. B. Mallayya	08119	01.05.1976	01.01.2013
190.	W. D. Soinda	08120	20.12.1976	01.01.2013
191.	M. N. Raju	08121	10.03.1982	01.01.2013
192.	B. Nahak	08622	10.06.1963	01.01.2013
193.	Varuvoru Sreedhar	08122	15.06.1977	01.01.2013
194.	Rajiv Kishan Gubgotra	08623	18.04.1965	01.01.2013
195.	Nelapatla Ashok Babu	08123	01.06.1974	01.01.2013
196.	R. Krishanmurthy	08624	26.08.1954	01.01.2013
197.	J. S. Nagar	08625	20.05.1957	01.01.2013
198.	S. Anbuselvam	08125	11.07.1982	01.01.2013
199.	R. V. A. Prasaad	08126	16.06.1983	01.01.2013
200.	R. K. Madanlal	08627	12.01.1963	01.01.2013
201.	B. K. Vishnu Priya	08127	26.02.1979	01.01.2013
202.	N. J. Vyas	08628	16.05.1965	01.01.2013
203.	B. S. Anant	08128	10.08.1982	01.01.2013
204.	K. S. Rani	08629	12.09.1967	01.01.2013
205.	S. S. Priya M	08129	10.09.1977	01.01.2013
206.	D Prasad Rao	08630	09.01.1962	01.01.2013
207.	R. Satish Chandra Ramsevak	08130	01.06.1976	01.01.2013
208.	A. K. Dubey	08631	01.03.1959	01.01.2013
209.	Ankur Alya	08131	30.12.1981	01.01.2013
210.	Sanjay Gosain	08632	28.07.1966	01.01.2013
211.	Sandeep Lakra	08132	10.05.1981	01.01.2013

1	2	3	4	5
212.	Baij Nath Singh	08633	03.10.1965	01.01.2013
213.	L. Pachuaau	08133	01.10.1981	01.01.2013
214.	Panna Roy	08634	27.12.1959	01.01.2013
215.	Sridhar Dora	08134	03.03.1981	01.01.2013
216.	S. Nandan Kaul	08635	02.05.1960	01.01.2013
217.	D. K. Srivastava	08636	30.05.1966	01.01.2013
218.	Surendra Meena	08136	19.09.1979	01.01.2013
219.	Seema Meena	08137	06.07.1980	01.01.2013
220.	Anita Meena	08138	16.07.1984	01.01.2013
221.	C. Manickam	08639	20.04.1955	01.01.2013
222.	Pratibha Meena	08139	01.07.1981	01.01.2013
223.	Rabindra Nath Ray	08641	17.08.1957	01.01.2013
224.	K. Hauthang	08141	28.10.1980	01.01.2013
225.	A. K. Mandal	08642	03.05.1957	01.01.2013
226.	Lal Ramsanga Saila	08142	01.02.1975	01.01.2013
227.	P. S. Thuingaleng	08143	02.05.1979	01.01.2013
228.	Kapil Mandal	08644	10.01.1966	01.01.2013
229.	Anubhav Singh	08144	18.04.1983	01.01.2013
230.	Bhopal Singh	08145	28.05.1976	01.01.2013
231.	Guman Singh Negi	08646	02.01.1958	01.01.2013
232.	N. S. Shashidhara	08146	11.04.1981	01.01.2013

ANAND UPADHYAY, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 27th February 2013

No. A-5/1/2013-SEZ—In pursuance of the Search Cum-Selection Committee recommendations, the President is pleased to appoint Dr. Safeena A. N., IAS, (BH : 97) Development Commissioner, Cochin Special Economic Zone under the Department of Commerce, in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) + GP Rs. 8,700/- w.e.f. the forenoon of 15.01.2013 for a period of 5 years or until further orders.

S. S. KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 19th February 2013

No. A-38013/1/2012-Cadre—On attaining the age of superannuation, the following Section Officers of CSS Cadre

of Supply Division retires from Government Service with effect from the date mentioned against their names :—

Sl. No.	Name	Date of Birth	Date of Superannuation
1.	Smt. Sarita Sood	18.02.1953	28.02.2013
2.	Smt. Parveen Sood	22.02.1953	28.02.2013

SANJOY SHANKAR, Under Secy.

OFFICE OF THE ECONOMIC ADVISER

New Delhi, the 26th February 2013

No. A-38013/02/2012-Ec.-Ad.- (Admn.-I)—On attaining the age of superannuation, Shri Rajendra Kumar Purohit, Economic Officer in the Office of the Economic Adviser, Ministry of Commerce & Industry, shall stand retired from Government Service with effect from the afternoon of 28th February, 2013.

S. S. NEGI, Economic Adviser

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 26th February 2013

No. 04/2013(F. No. A-46011/01/2013-Estt.)—On the basis of the recommendations made by the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint Shri T. L. Balakumar, a regular Assistant Director Gr.-I (Non-Technical) to the post of Deputy Director (Non-Technical) (Gr.-A Gazetted), in the Pay Scale of PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- in the Office of the Textile Commissioner, Ministry of Textiles, Mumbai, with effect from 20th February, 2013 (F/N), on promotion basis. He will be on probation for a period of two years from 20.02.2013 (F/N) which is liable to be extended at the discretion of the Competent Authority.

SUMINDER KAUR, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 11th February 2013

No. 23011/20/2012-HR-II—The President is pleased to appoint Shri Sanjay Srivastava, Under Secretary (ad hoc) as Under Secretary on regular basis against the Select List 2009 in the Department of Fertilizers, w.e.f. 26.11.2012 (F/N) subject to the conditions contained in DoPT's Order No. 5/11/2011-CS-I (U) dated 26.11.2012.

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 22nd February 2013

No. 11(1)/2011-Estt.—Consequent to his transfer under Rational Transfer Policy of the DoP&T vide their Order No. 5/8/2012-CS-I (U) Pt.-I dated 18 January, 2013, Shri Arvind Mukherjee, Under Secretary (CSL : 5230) is appointed to the Grade-I (Under Secretary) of CSS in the Ministry of Steel w.e.f. the forenoon of 22nd February, 2013.

SUNIL PRAKASH, Dir.

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 21st February 2013

No. A-22017/1/2011-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 06/13/2012-CS-I (S) dated 21.12.2012 regarding rotational transfers of Section Officer of CSS, the President is pleased to appoint Shri Raj Vrat Arya, Section Officer of CSS Cadre, Science & Technology and is taken on the strength of Ministry of Coal as Section Officer of CSS Cadre in the pay structure PB-2, Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from 12.02.2013 (F/N).

ANAND PRAKASH, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 26th February 2013

No. A-38014/20/2012-E-I—Shri Om Parkash Bachhety, Under Secretary of CSS of the Department of Food & Public Distribution will retire from Government Service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 28th February, 2013.

ARUN KUMAR SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-110108, the 21st February 2013

No. A-22020/02/2013-CHS-IV—The Hon'ble President of India, Shri Pranab Mukherjee is pleased to appoint Dr. Rajvardhan Azad, Chief and Professor of Ophthalmology, Dr. Rajendra Prasad Centre for Ophthalmic Sciences, All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Ansari Nagar, New Delhi to his panel of Honorary Physicians/Surgeons with effect from 8th February, 2013, till his tenure or until further orders, whichever is earlier.

LALIT KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 1st February 2013

No. A-38012/05/2012-Estt-I—On attaining the age of superannuation, Sh. P. K. Pradhan, IAS (WB:77), posted as Secretary, Department of Health & Family Welfare, has retired from Government Service with effect from the afternoon of 31st January, 2013.

ANIL KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

New Delhi-1, the 27th February 2013

No. A-19011/11/2012-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 5/9/2012-CS.I(U) dated 30th October, 2012 the President is pleased to appoint Shri Arvind Kumar Mishra, Section Officer of Central Secretariat Service (CSS), as Under Secretary (ad hoc) in the Ministry of Panchayati Raj, in the Pay Band (PB-3) Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from the forenoon of 30th October, 2012.

G. S. CHITRA, Under Secy.

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS

New Delhi, the 23rd January 2013

No. PF/I/9-Admn.—In terms of Department of Personnel and Training Order No. 5/9/2012-CS.I(U) dated 30.10.2012, the President is pleased to appoint Shri Indu Bhushan Lenka, Section Officer (CSL No. 7154) of Central Secretariat Service (CSS), as Grade-I (Under Secretary) of CSS, on ad hoc basis, in the Pay Band PB-3, Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- w.e.f. the forenoon of 12th November, 2012 and till 31.05.2013 or till the post is filled up on regular basis, or until further orders, whichever is earlier.

2. The appointment of Shri Indu Bhushan Lenka is as per the terms & conditions as mentioned in the above said DoP&T's order.

RAJIVE SABHARWAL, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT)

New Delhi, the 15th February 2013

No. A-12025/(1)/1/2010-Estt.II—In pursuance of the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri S. P. Mishra, Assistant Publicity Officer of the Ministry of Home Affairs, Office of the Director General Sashastra Seema Bal, New Delhi as Deputy Director (Media) in the Drug Abuse Prevention Division of the Ministry of Social Justice and Empowerment in the Pay Scale, Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- (General Central Service Group A, Gazetted, Non-Ministerial) on deputation basis w.e.f. 01.02.2013 (F.N.) for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

DAYANIDHI JOSHI, Under Secy.

The 22nd February 2013

No. A-12034/9/2012-Estt.II—The President is pleased to appoint Shri P. Durga Prasad, son of Late Pagadala Venugopal retired CEO, Zilla Parishad, Govt. of Andhra Pradesh and resident of House No. 6-3-597/G, Gulsan-E-Fathima, Venkataramana Colony Khairatabad, Hyderabad (A.P.), as Additional Private Secretary to the Hon'ble Minister of State for Social Justice and Empowerment (Shri P. Balram Naik) in Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from the forenoon of 04.01.2013 on co-terminus basis with the tenure of the Minister or until further orders, whichever is earlier.

DAYANIDHI JOSHI, Under Secy.

The 25th February 2013

No. A-42018/45/2009-Estt.I(Pt.)—In terms of Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005, the following is the revised list of Central Public Information Officers of the Ministry of Social Justice and Empowerment :—

Sl. No.	Bureau/ Division	Name	Designation	Telephone Nos.	Subject Matter
1	2	3	4	5	6
		(S/Shri)			
1.	Administration	Dayanidhi Joshi	Under Secretary	23382184	All matters pertaining to: (i) the Administration/ Establishment of the Ministry except CR, Record and cash matters (ii) Discretionary Fund.
		S. K. Sharma	Under Secretary	23382895	All matters pertaining to CR, Record and Cash.

1	2	3	4	5	6
2.	S C D	P. L. Negi	Director	23385491	All matters pertaining to: (i) Vigilance Unit, (ii) Dr. Ambedkar Foundation, (iii) Babu Jagjivan Ram National Foundation (BJRNF), (iv) National Safai Karmacharis Finance and Development Corp. (NSKFDC), (v) National Scheduled Castes Finance and Development Corp. (NSFDC), (vi) Scheduled Caste Development Corporation (SCDC).
3.		Chaitanya Murti	Director	23070095	All matters pertaining to: (i) Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers (SRMS), (ii) Work relating to Committee of Ministers on Dalit Affairs, (iii) Corporate Cell, (iv) Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojna (PMAGY), (v) Affirmative Action, Reservation in private sector, and (vi) Parliament work.
4.		Gyanendra Kumar Dwivedi	Director	23387539	All matters relating to: (i) Scheduled Castes Sub Plan (SCSP), (ii) Scheme for Special Central Assistance to SCs Sub Plan.
5.		Sham Sunder Gupta	Deputy Secretary	23382774	All matters relating to: (i) Babu Jagjivan Ram Chhatrawas Yojna for SC Boys & Girls (ii) Coaching and allied Scheme for SCs/OBCs students (iii) Top Class Education (iv) upgradation of Merit for SC Students.
6.		T. V. A. Ram	Deputy Secretary	23387430	All matters relating to: (i) Post Matric Scholarship for SC Students (ii) Rajiv Gandhi National Fellowship Scheme for SC Students (iii) National Overseas Scholarship Scheme for SC Students; (iv) Pre-Matric Scholarship Scheme for SC Students; (v) Pre-Matric Scholarship Scheme for children of those engaged in unclean occupations, (vi) Automation of SCD Bureau.
7.		M. A. Muraleedharan	Deputy Secretary	23388519	All matters pertaining to: (i) Administrative work relating to NCSC, Joint Cadre (ii) Scheme for Grant-in-aid to Voluntary Organisations working for SCs and (iii) R. I. Cell and (iv) National Commission for Safai Karamcharis.
8.		Kanhaiya Lal	Under Secretary	23388511	All matters relating to: (i) Protection of Civil Rights Act 1956 & the SCs and the STs (Prevention of Atrocities) Act 1989, and (ii) Revision of lists of SCs.
9.	S D	Lalsanglur	Director	23383256	All matters pertaining to: (i) Sanction of Grant-in-aid to Non-Governmental Organisations under the "Scheme for Prevention of Alcoholism and Substance (Drugs)" and "Scheme of Integrated Programme for Older Persons (ii) Policy matters relating to Senior Citizens and Drug Abuse Prevention and (iv) Administrative matters of National Institute of Social Defence.
10.		J. K. Sahu	Under Secretary	23388837	All matters pertaining to: (i) SD—Co-ordination, (ii) Implementation of the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007,

1	2	3	4	5	6
					(iii) Proposed new Scheme for Establishment of Old Age Homes for Indigent Senior Citizens
11.		Aujender Singh	Under Secretary	23073703	All matters pertaining to: (i) Beggary, (ii) Transgender/Eunuch, (iii) National Survey on the extent, pattern and trends of drug abuse in the country in collaboration with NSSO
12.	BC	Surekha Sahu	Director	23753404	All matters pertaining to Relief and Rehab. of the Narmada Control Authority. All matters pertaining to: (i) Centrally Sponsored Schemes for Pre-matric/Post-matric Scholarships for OBCs, (ii) Scheme of Construction of Hostels for Boys and Girls for OBCs, and (iii) Central Sector Scheme for Grant-in-aid to Voluntary Organisations for OBCs (iv) National Commission for Denotified, nomadic and Semi-nomadic Tribes, (v) NBCFDC and (vi) Co-ordination of Backward Classes Bureau
13.		C. V. L. N. Prasad	Deputy Secretary	23753405	All matters pertaining to: (i) Inclusion of castes in the Central List of OBCs & matter relating thereto, (ii) National Commission for Backward Classes, (iii) Commission for Economically Backward Classes, (iv) Policy of OBCs.
14.	IFD	Sandeep Kumar Gupta	Deputy Secretary	23389474	Matters pertaining to Internal Finance Division
		Sanyasi Pradhan	Deputy Secretary	23381930	Matters pertaining to Internal Finance Division & Budget
16.	Plan & Statistics Division	Dr. (Ms.) Madhumala Chattopadhyay	Sr. Research Officer	23385037	All matters pertaining to Plan and Statistics Division.
17.	Co-ordination	Arvind P. Singh	Under Secretary	23386981	Matters pertaining to Co-ordination and Facilitation Centre (Public Grievances and RTI) of the Ministry and Co-ordination section.
18.	Deptt. of Disability Affairs	D. K. Panda	Under Secretary	23381641	All matters pertaining to: (i) Implementation of PWD Act, 1995 (ii) National Awards for Persons with Disabilities, (iii) Court Cases, (iv) Follow up on National Policy, (v) Accessibility for PWDs, (vi) Amendment of PWD Act, 1995, (vii) CCDD office, (viii) International Co-ordination—UN Convention on Rights of PWD, GPDD, Bilateral Projects, (ix) Incentive Scheme for employers in Private Sectors for PWD, (x) RCI Act 1992 (xi) RCI (xii) Trust Fund, (xiii) Scheme for implementation of PWD Act (SIPDA), (xiv) "Antarchakshu" Republic Day Parade Tableau and "Samarth" National Festival.
19.		O. P. Dogra	Deputy Secretary	23071374	All matters pertaining to: (i) Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme, (ii) Screening Committee (iii) DDRC (iv) Post-matric Scholarship Scheme for PwDs (v) National Overseas Scholarship Scheme for PwDs.
20.	Jagdish Kumar	Deputy Secretary		23386220	All matters pertaining to: (i) National Institutes including Composite Rehabilitation Centres,

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

(ii) Indian Spinal Injury Centre, (iii) Scheme for Assistance for purchase of Aids and Appliances for Persons with Disabilities under ADIP Scheme, (iv) Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO of India), and (v) Bilateral agreements (vi) Pending issues of DRC/RRTC after their closure, (vii) National Trust Act 1999, (viii) National Funds, (ix) National Handicapped Finance Development Corporation, (x) Coordination of DD and (xi) All matters pertaining to Co-ordination of the Disability Affairs.

2. During the leave etc. of a CPIO, his link officer will function as CPIO.

3. Concerned officers of the level of Joint Secretary shall function as the Appellate Authorities. In case of D/o Disability Affairs, Shri K. V. S. Rao, Director (DD) shall function as the Appellate Authority.

DAYANIDHI JOSHI, Under Secy.

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

New Delhi-110003, the 26th February 2013

No. A-53011/7/2012-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Devesh Deval, IAS (MT:2004) as Addl. Private Secretary to Minister of Minority Affairs, Government of India w.e.f. 21st February, 2013.

2. The appointment of Shri Devesh Deval, IAS (MT:2004), Addl. Private Secretary to Hon'ble Minister of Minority Affairs is on co-terminus basis with the tenure of the Minister of Minority Affairs or until further orders, whichever is earlier.

3. Shri Devesh Deval, IAS (MT:2004), Addl. Private Secretary to Hon'ble Minister of Minority Affairs will be paid Deputation (Duty) Allowance at the rate of 10% of basis pay subject to maximum of Rs. 4,000/- p.m. in terms of DoPT's O.M. No. 2/22(B)/2008-Estt. (Pay II) dated 3rd September, 2008 and O.M. No. 2/23/2008-Estt. (Pay-II) dated 28th May, 2009.

MAITREYEE ROY, Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATION & IT (DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATION)

New Delhi-110001, the 23rd December 2011

Sub.: Appointment to the Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' on the basis of result of Civil Services (Main) Examination, 2010.

No. 7-03/2009-SEA-I—On the basis of the Civil Services [Main] Examination, 2010 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Mrs. Anju Lata (Rank No. 515) (General) to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the Pay Scale of PB-3, Rs. 15,600—39,100 +5,400/- on the following terms:

- (i) He/she will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, he/she will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him/her liable to be discharged from service or reversion to his/her substantive post on which he/she may be retaining a lien, as the case may be.
- (ii) The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more than one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place during the life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.
- (iii) The appointment of a female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.
- (iv) The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the NICF. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.
- (v) Taking of an oath of allegiance/faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.

- (vi) The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.
- (vii) Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to clearance of verification of character and antecedents from the Cadre Controlling Authority i.e. Department of Telecommunications.

3a. In case the enquiry as envisaged under Rule 20 of Civil Services Examination Rules is pending in his/her case, his/her appointment to a service will be subject to he/she being found suitable on the basis such enquiry as may be considered necessary by the Government having regard to his/her character and antecedents.

3b. In case, at any stage, it is found that any certificate or document furnished by him/her and having a bearing on his/her eligibility is not in order or any information/material facts having bearing on his/her eligibility have been hidden/misrepresented by him/her, then his/her appointment is liable to be cancelled forthwith without prejudice to any other punitive action under relevant rules.

4. The acceptance of this offer or not, is to be intimated to this department without fail. If he/she accepts this offer of appointment, he/she will report to the GM (Training & Finance), Department of Telecom., NICEF, Ghaziabad. This offer would lapse if he/she did not join within a period of one month from the date of issue of this offer.

5. The candidate who has joined to Foundation Course will be deemed to be in service from the date of his/her joining the Foundation Course.

B. M. SHARMA, ADG (SEA)

To

Mrs. Anju Lata
W/o Sh. Bhuvnendra Singh
Flat No. D-8/Plot No. A-6,
Texla Estate,
Shalimar Garden,
Ex-2, Ghaziabad, UP-201005

No. 7-03/2009-SEA-I—On the basis of the Civil Services [Main] Examination, 2010 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Sh. Vikram Singh (Rank No. 522) (General) to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the Pay Scale of PB-3, Rs. 15,600—39,100 + 5,400/- on the following terms:

- (i) He/she will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, he/she will be required to undergo such training and take

such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him/her liable to be discharged from service or reversion to his/her substantive post on which he/she may be retaining a lien, as the case may be.

- (ii) The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more than one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place during the life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.
- (iii) The appointment of a female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.
- (iv) The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the NICEF. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.
- (v) Taking of an oath of allegiance/faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.
- (vi) The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.
- (vii) Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to clearance of verification of character and antecedents from the Cadre Controlling Authority i.e. Department of Telecommunications.

3a. In case the enquiry as envisaged under Rule 20 of Civil Services Examination Rules is pending in his/her case, his/her appointment to a service will be subject to he/she being found suitable on the basis such enquiry as may be considered necessary by the Government having regard to his/her character and antecedents.

3b. In case, at any stage, it is found that any certificate or document furnished by him/her and having a bearing on his/her eligibility is not in order or any information/material facts having bearing on his/her eligibility have been hidden/misrepresented by him/her, then his/her appointment is liable to be cancelled forthwith without prejudice to any other punitive action under relevant rules.

4. The acceptance of this offer or not, is to be intimated to this department without fail. If he/she accepts this offer of appointment, he/she will report to the GM (Training & Finance), Department of Telecom., NICEF, Ghaziabad. This offer would lapse if he/she did not join within a period of one month from the date of issue of this offer.

5. The candidate who has joined to Foundation Course will be deemed to be in service from the date of his/her joining the Foundation Course.

B. M. SHARMA, ADG (SEA)

To

Sh. Vikram Singh
House No. 63,
V&PO Alipur,
Delhi-110036

No. 7-03/2009-SEA-I—On the basis of the Civil Services [Main] Examination, 2010 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Sh. Barjinder Singh (Rank No. 570) (General) to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the Pay Scale of PB-3, Rs. 15,600—39,100 + 5,400/- on the following terms:

- (i) He/she will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, he/she will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him/her liable to be discharged from service or reversion to his/her substantive post on which he/she may be retaining a lien, as the case may be.
- (ii) The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more than one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place during the life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.
- (iii) The appointment of a female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.
- (iv) The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the NICEF. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.

- (v) Taking of an oath of allegiance/faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.
- (vi) The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.
- (vii) Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to clearance of verification of character and antecedents from the Cadre Controlling Authority i.e. Department of Telecommunications.

- 3a. In case the enquiry as envisaged under Rule 20 of Civil Services Examination Rules is pending in his/her case, his/her appointment to a service will be subject to he/she being found suitable on the basis such enquiry as may be considered necessary by the Government having regard to his/her character and antecedents.
- 3b. In case, at any stage, it is found that any certificate or document furnished by him/her and having a bearing on his/her eligibility is not in order or any information/material facts having bearing on his/her eligibility have been hidden/misrepresented by him/her, then his/her appointment is liable to be cancelled forthwith without prejudice to any other punitive action under relevant rules.

4. The acceptance of this offer or not, is to be intimated to this department without fail. If he/she accepts this offer of appointment, he/she will report to the GM (Training & Finance), Department of Telecom., NICEF, Ghaziabad. This offer would lapse if he/she did not join within a period of one month from the date of issue of this offer.

5. The candidate who has joined to Foundation Course will be deemed to be in service from the date of his/her joining the Foundation Course.

B. M. SHARMA, ADG (SEA)

To

Sh. Barjinder Singh
House No. 101,
Sector-4, Ranjit Avenue,
Amritsar, Punjab-143001

No. 7-03/2009-SEA-I—On the basis of the Civil Services [Main] Examination, 2010 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Sh. Shailash Bansal (Rank No. 599) (General) to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the Pay Scale of PB-3, Rs. 15,600—39,100 + 5,400/- on the following terms:

- (i) He/she will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent

Authority. During the period of probation, he/she will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him/her liable to be discharged from service or reversion to his/her substantive post on which he/she may be retaining a lien, as the case may be.

- (ii) The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more than one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place during the life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.
- (iii) The appointment of a female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.
- (iv) The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the NICF. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.
- (v) Taking of an oath of allegiance/faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.
- (vi) The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.
- (vii) Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to clearance of verification of character and antecedents from the Cadre Controlling Authority i.e. Department of Telecommunications.

- 3a. In case the enquiry as envisaged under Rule 20 of Civil Services Examination Rules is pending in his/her case, his/her appointment to a service will be subject to he/she being found suitable on the basis such enquiry as may be considered necessary by the Government having regard to his/her character and antecedents.
- 3b. In case, at any stage, it is found that any certificate or document furnished by him/her and having a bearing on his/her eligibility is not in order or any information/material facts having bearing on his/her eligibility have been hidden/misrepresented by him/her, then his/her appointment is liable to be cancelled forthwith without prejudice to any other punitive action under relevant rules.

4. The acceptance of this offer or not, is to be intimated to this department without fail. If he/she accepts this offer of appointment, he/she will report to the GM (Training & Finance), Department of Telecom., NICF, Ghaziabad. This offer would lapse if he/she did not join within a period of one month from the date of issue of this offer.

5. The candidate who has joined to Foundation Course will be deemed to be in service from the date of his/her joining the Foundation Course.

B. M. SHARMA, ADG (SEA)

To

Sh. Shailesh Bansal,
S/o Sh. Gopal Bansal,
Ward No. 8, Near Ram Bhawan,
Behind Awadh Bihari Ji Mandir,
Kotputli, Jaipur, Raj.-303108

No. 7-03/2009-SEA-I—On the basis of the Civil Services [Main] Examination, 2010 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Ms. Swati Shahi (Rank No. 648) (General) to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the Pay Scale of PB-3, Rs. 15,600—39,100 + 5,400/- on the following terms:

- (i) He/she will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, he/she will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him/her liable to be discharged from service or reversion to his/her substantive post on which he/she may be retaining a lien, as the case may be.
- (ii) The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more than one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place during the life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.
- (iii) The appointment of a female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.
- (iv) The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the NICF.

Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.

- (v) Taking of an oath of allegiance/faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.
- (vi) The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.
- (vii) Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to clearance of verification of character and antecedents from the Cadre Controlling Authority i.e. Department of Telecommunications.

- 3a. In case the enquiry as envisaged under Rule 20 of Civil Services Examination Rules is pending in his/her case, his/her appointment to a service will be subject to he/she being found suitable on the basis such enquiry as may be considered necessary by the Government having regard to his/her character and antecedents.
- 3b. In case, at any stage, it is found that any certificate or document furnished by his/her and having a bearing on his/her eligibility is not in order or any information/material facts having bearing on his/her eligibility have been hidden/misrepresented by him/her, then his/her appointment is liable to be cancelled forthwith without prejudice to any other punitive action under relevant rules.

4. The acceptance of this offer or not, is to be intimated to this department without fail. If he/she accepts this offer of appointment, he/she will report to the GM (Training & Finance), Department of Telecom., NICF, Ghaziabad. This offer would lapse if he/she did not join within a period of one month from the date of issue of this offer.

5. The candidate who has joined to Foundation Course will be deemed to be in service from the date of his/her joining the Foundation Course.

B. M. SHARMA, ADG (SEA)

To

Ms. Swati Shahi
D/o Shri Virendra Shahi,
40, Awas Vikas Colony,
Betiahata, Gorakhpur,
UP-273001

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 28th February 2013

No. 6156/NIC/2012-Adm-II—Director General, NIC is pleased to accept the resignation of Shri Mayank Pandey (Emp. Code No. 6156), from the post of Scientific Officer/

Engineer Gr. 'SB', National Informatics Centre - U.P. State Unit, Lucknow, with effect from the afternoon of 23.11.2012 and he is relieved of his duties from the same day.

SUBHASH DUTTA, Dy. Dir. (Adm-II)

STANDARDISATION, TESTING & QUALITY CERTIFICATION DIRECTORATE

New Delhi-110003, the 28th February 2013

No. 16(1)/2011-PA(TA)—The President is pleased to appoint the following Scientist 'D' in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 7,600/- of this Directorate as Scientist 'E' in the Pay Band-4, Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay Rs. 8,700/- with effect from the dates mentioned against each, subject to the outcome of the O.A. No. 1294/12 filed by Shri Kamal J. P. Lakra, Scientist 'D' before the Hon'ble CAT, Madras Bench :—

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Shri C. R. Kathalay | (w.e.f. 06.02.2013 F.N.) |
| 2. Smt. Poonam Singh | —do— |
| 3. Shri Harcharan Lal | —do— |
| 4. Shri M. K. Saxena | —do— |
| 5. Shri Ashok Kumar | —do— |
| 6. Shri Jitender Saigal | —do— |
| 7. Shri Dharamveer Singh | —do— |
| 8. Shri Sheo Prasad | —do— |
| 9. Shri Prahlad Gupta | —do— |
| 10. Shri Pradeep Gunjyal | —do— |
| 11. Smt. K. Swarupa | (w.e.f. 07.02.2013) |
| 12. Smt. Manjula Vani | (w.e.f. 06.02.2013) |
| 13. Shri P. Jagan Mohan Rao | —do— |
| 14. Shri K. S. Shahji | (w.e.f. 07.02.2013 F.N.) |
| 15. Shri M. V. Deshpandey | (w.e.f. 06.02.2013 F.N.) |
| 16. Shri S. Chattopadhyay | —do— |

S. RAMAKRISHNAN, Dy. Dir.

No. 16(1)/2011-PA(TA)—The President is pleased to appoint the following Scientist 'B' in the Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 5,400/- of this Directorate as Scientist 'C' in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/- with effect from the date mentioned against each, subject to the outcome of the O.A. No. 1294/12 filed by Shri Kamal J. P. Lakra, Scientist 'D' before the Hon'ble CAT, Madras Bench :—

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Smt. Telma Scaria | (w.e.f. 07.02.2013 F.N.) |
| 2. Smt. S. M. Saraswathi | (w.e.f. 06.02.2013 F.N.) |
| 3. Shri Chetram Meena | —do— |
| 4. Shri Om Prakash Soni | —do— |

S. RAMAKRISHNAN, Dy. Dir.

No. 16(1)/2011-PA(TA)—The President is pleased to appoint the following Scientist 'C' Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/- of this Directorate as Scientist 'D' in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 7,600/- with effect from the 06.02.2013 (F.N.), subject to the outcome of the O.A. No. 1294/12 filed by Shri Kamal J. P. Lakra, Scientist 'D' before the Hon'ble CAT, Madras Bench :—

1. Shri S. C. Mistry
2. Shri Mahavir Singh
3. Shri J. B. Chattopadhyay
4. Shri Ashok Kumar

S. RAMAKRISHNAN, Dy. Dir

DEPARTMENT OF POSTS

OFFICE OF THE CHIEF POSTMASTER GENERAL,
M.P. CIRCLE

Bhopal, the 27th December 2012

Sub :—Promotion and posting in ASP cadre in M.P. Circle.

No. STA 16-1/DPC-ASP/2012—The Chief Postmaster General M.P. Circle, Bhopal is pleased to appoint the following Inspector Posts in ASP Cadre in PB-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,600/- on regular basis with effect from the date of assumption of charge.

2. The officers on promotion in ASP Cadre are allotted to the Region Mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Working place	Remarks
1.	Shri D. S. Chouhan	ASP (Ad hoc) Indore Mfl. Dn.	Indore Region
2.	Shri Rajesh Kumawat	ASP (Ad hoc) Indore City Dn.	Indore Region
3.	Shri S. K. Nema	ASP (Ad hoc) Hoshangabad	HQ Region

3. General Conditions :—

- (i) The PMG Indore if required may issue the posting orders for the officer working in Indore Region. Posting orders for Bhopal (HQ) will be issued separately.
- (ii) No re-allotment requests will be considered within a period of one year. Leave taken during this period will not be counted for calculated of one year period for considering requests for re-allotment.
- (iii) It is the officers responsibility to send a copy of the charge report on assumption of charge on promoted post to APMG (Staff) C.O. Bhopal for record purpose.
- (iv) If there are grievances regarding seniority or any other complaint representations, if any, should be made within 15 days from the date of issue of the order.
- (v) Officers should sent necessary charge report within a week from the Date of issue of this order.

- (vi) In case, an officer is not willing to accept his promotion, his declination letter in writing should be received in CO Bhopal within 30 days from the date of issue of posting order.

4. Vigilance/Disciplinary case, if any :—

In case, any vig./Disc. Case is pending against the officials, they should not be relieved for posting without obtaining specific orders from this office. The officers against whom any punishment is current, they should not be promoted before expiry of currency of punishment. A report in this regard be submitted immediately.

5. Option for fixation of pay :—

If the officer who wishes to give, option for choosing date for fixation of pay under FR 22(I)(a)(i) should do so with in one month from the date of promotion.

The officials who have been granted second financial up-gradation under the scheme of ACP/MACP, are not entitled for pay fixation on promotion to ASP Cadre.

M. S. NEMA, Asstt. Postmaster General (Staff)

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 1st March 2013

No. A-31011/02/2012-CLS.I—The President is pleased to appoint the following Junior Time Scale (JTS Grade) Officers of Central Labour Service (CLS Cadre) on promotion as regular Senior Time Scale (STS Grade) Officers in the Pay Scale Corresponding to PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay Rs. 6,600/- with effect from the date of indicated against each :—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1	2	3
1.	Sh. Saroj Kumar Jha	30.07.2012
2.	Sh. S. K. Vashisht	17.07.2012
3.	Sh. Pattan Salim Khan	31.07.2012
4.	Sh. Remis Thiru	01.08.2012
5.	Sh. J. Bhagvath Singh	03.08.2012
6.	Smt. Manjulata Behera	04.08.2012
7.	Smt. Sandhya Nandi	07.07.2012
8.	Sh. P. Ekka	03.08.2012
9.	Ms. Aseema Mishra	17.08.2012
10.	Smt. Rajni Kanta Minj	04.08.2012
11.	Sh. P. V. P. M. Chetty	06.08.2012
12.	Sh. S. S. Hardas	30.07.2012
13.	Smt. Shakuntala Patnaik	09.07.2012
14.	Sh. Vinay Kumar Sinha	10.07.2012
15.	Sh. Syed Kaiwan Jah	01.08.2012
16.	Sh. Vijyananda	03.08.2012

1	2	3
17.	Sh. A. Anjanappa	03.08.2012 ~
18.	Sh. R. S. Chauhan	08.08.2012
19.	Sh. Narayan Tripathy	25.07.2012
20.	Sh. Nazzer A.	30.07.2012
21.	Sh. Anand Kumar	06.07.2012
22.	Sh. V. M. Sawant	06.07.2012
23.	Sh. R. K. Panda	02.08.2012
24.	Sh. P. L. Rajendran	06.09.2012
25.	Sh. N. S. Panwar	12.07.2012
26.	Sh. G. K. Mohapatra	24.07.2012
27.	Sh. Chandra Deo	18.09.2012
28.	Sh. K. C. Sethi	01.08.2012
29.	Sh. K. Shekar	03.08.2012
30.	Sh. P. C. Parmar	13.07.2012

2. The promotion of the above mentioned Officers to the STS Grade will be subject to the final outcome of the O.A. No. 619-CH/2011 filed by Sh. A. K. Goyal before the Hon'ble CAT, Chandigarh, MA No. 420/2012 in O.A. No. 751/2011 filed by Sh. N. C. Parida before the Hon'ble CAT, Cuttack, O.A. No. 228/2011 filed by Sh. B. B. Singh Samantha before the Hon'ble CAT, Guwahati and WPCT. No. 15/2012 filed by Sh. Ajay Kumar before the Hon'ble High Court, Calcutta.

AJAY JOSHI, Under Secy.

No. A-31011/02/2012-CLS.I—The President is pleased to appoint the following Junior Time Scale (JTS Grade) Officers of Central Labour Service (CLS Cadre) on promotion as regular Senior Time Scale (STS Grade) Officers in the Pay Scale Corresponding to PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay Rs. 6,600/- on notional basis with effect from 06.11.2009 i.e. the date of promotion of their juniors to the STS Grade. However, their actual promotion will be effective

from the date of assumption of the charge of the promotional post as indicated against each :-

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1.	Sh. P. K. Vashisht	16.07.2012
2.	Sh. Siya Ram Saha	09.07.2012
3.	Sh. Anil Kumar Sinha	13.08.2012
4.	Sh. Yash Pal	09.08.2012
5.	Sh. Martin Joseph	16.08.2012

2. The promotion of the above mentioned Officers to the STS Grade will be subject to the final outcome of the O.A. No. 619-CH/2011 filed by Sh. A. K. Goyal before the Hon'ble CAT, Chandigarh, MA No. 420/2012 in O.A. No. 751/2011 filed by Sh. N. C. Parida before the Hon'ble CAT, Cuttack, O.A. No. 228/2011 filed by Sh. B. B. Singh Samantha before the Hon'ble CAT, Guwahati and WPCT. No. 15/2012 filed by Sh. Ajay Kumar before the Hon'ble High Court, Calcutta.

AJAY JOSHI, Under Secy.

No. A-31011/02/2012-CLS.I—The President is pleased to grant Proforma Promotion to Dr. Onkar Sharma, who is presently on deputation as Fellow in VVGNI, as regular STS Grade Officer with effect from 04.07.2012 i.e. the date of promotion of his immediate Junior to Senior Time Scale (STS Grade) under the Next Below Rules (NBR).

2. The promotion of the above mentioned Officers to the STS Grade will be subject to the final outcome of the O.A. No. 619-CH/2011 filed by Sh. A. K. Goyal before the Hon'ble CAT, Chandigarh, MA No. 420/2012 in O.A. No. 751/2011 filed by Sh. N. C. Parida before the Hon'ble CAT, Cuttack, O.A. No. 228/2011 filed by Sh. B. B. Singh Samantha before the Hon'ble CAT, Guwahati and WPCT. No. 15/2012 filed by Sh. Ajay Kumar before the Hon'ble High Court, Calcutta.

AJAY JOSHI, Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2013

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013